

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2014 (आश्विन 5, 1936)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2014 (ASVINA 5, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2014

रक्षा (एम एस)

सं. 212, दिनांक 02 सितम्बर 2014—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 अगस्त 2014 से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

अवैतनिक प्रधान थल सेना ए डी सी

आई सी-30351के जनरल दलबीर सिंह, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे.

आई सी-25816पी जनरल बिक्रम सिंह, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे.

के स्थान पर (सेवानिवृत्त)

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

पैदल सेना

आई सी—30723 के ले. जन. अशोक सिंह, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे.

आई सी—30351 के ले. जन. (अब जनरल) दलबीर सिंह, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे.

वि.से.मे. (दिनांक 01 अगस्त 2014 से थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत)

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जून 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

पैदल सेना कोर

आई सी—30503 ए ले. जन. जे पी नेहरा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे.

आई सी—30389 ए ले. जन. संजीव चाचरा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे.

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जुलाई 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

एएससी / एओसी / ईएमई

आई सी—34148 ए ले. जन. आर पी राय, एएससी

आई सी—27942 ए ले. जन. एन बी सिंह, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे. ईएमई

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 अगस्त, 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

अवैतनिक (वायु) ए डी सी

एयर मार्शल पी. कनकराज, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (15066) ए ई (एम)

रेवती रमन
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 213, दिनांक 03 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को 29 जून 2014 (पूर्वाह्न) से अपने निजी अधिकारी (स्टाफ) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अवैतनिक सर्जन के पद पर

(क) सर्ज वाइस एडमिरल शालेष रोहतगी, वीएसएम, डीजीएमएस (नेवी) (एमआर—04361 डब्ल्यू) (76221 बी)

(ख) लेफ्टिनेंट जनरल अजित सिंह नरुला, पीवीएसएम, वीएसएम, कमांडेंट एएच (आर एण्ड आर), दिल्ली (एमआर—03738 एच)

यश पांडे
मेजर जनरल
अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं)

थल सेना विभाग

सं. 214, दिनांक 04 सितम्बर 2014—थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(i)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन) कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक व नाम	दिनांक
क	डी एस-12553एच	कप्तान शलभ सकसेना	13-05-2014

एच एस संधू

ब्रिगेडियर

डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 215, दिनांक 05 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित को ई0 एम0 ई0 कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता समूह “क” पद पर नियुक्त करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परख अवधि पर रहेंगे :—

क्रमांक सं	नाम	नियुक्ति की तारीख
(क)	श्री योगेश कुमार	16 जुलाई 2014
(ख)	श्री मानश कुमार बेहरा	21 जुलाई 2014
(ग)	श्री दुष्यंत सिंह	16 जुलाई 2014
(घ)	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव	14 जुलाई 2014
(ङ)	श्री सुदिप चेरीयन कुरीयन	19 मार्च 2014
(च)	श्री चेतन जैन	21 मार्च 2014
(छ)	श्री देवेन्द्र बालोटीया	20 मार्च 2014

राजीव जौहरी

अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 216, दिनांक 08 सितम्बर 2014—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	आई सी-34338 ए/ले0 जनरल जी एस शेरगिल, वी एस एम, सिक्ख	03.10.2013

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1	आई सी—41145 ए/ब्रिग ए भार्गव, ए ए डी	10.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.10 से दी जायेगी।
2	आई सी—41955 ए/ब्रिग एम एल असवाल, ए ओ सी	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.10 से दी जायेगी।
3	आई सी—42032 ए/ब्रिग संजय दिखित, सिग्स	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.10 से दी जायेगी।
4	आई सी—43995 ए/ब्रिग राजीव जोशी, ई एम ई	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.10 से दी जायेगी।
5	आई सी—42311 ए/ब्रिग संजीव बाली, इंजीनियर्स	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.10 से दी जायेगी।
6	आई सी—42660 ए/ब्रिग तुषार राय, ए ओ सी	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.10 से दी जायेगी।
7	आई सी—45365 ए/ब्रिग प्रवेश पुरी, आर्मड	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.10 से दी जायेगी।
8	आई सी—45370 ए/ब्रिग जी एस मामक, ए एस सी	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.10 से दी जायेगी।
9	आई सी—45374 ए/ब्रिग एन के खजुरिया, ए एस सी	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.10 से दी जायेगी।
10	आई सी—45419 ए/ब्रिग वी सी चित्रवंशी, जे ए जी	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.10 से दी जायेगी।
11	आई सी—42751 ए/ब्रिग एस के नान्दल, गार्ड्स	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.10 से दी जायेगी।
12	आई सी—42752 ए/ब्रिग एस यादव, ए ए डी	25.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.10 से दी जायेगी।
13	आई सी—42753 ए/ब्रिग बी सी पोन्नप्पा, महार	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.10 से दी जायेगी।
14	आई सी—42755 ए/ब्रिग पी के सैनी, मेक इंफ	01.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.10 से दी जायेगी।
15	आई सी—42759 ए/ब्रिग एस के लामा, 5 जी आर	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.10 से दी जायेगी।
16	आई सी—42764 ए/ब्रिग पंकज चौहान, इंजीनियर्स	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.10 से दी जायेगी।
17	आई सी—42765 ए/ब्रिग जे जे मैथ्यूज, मेक इंफ	01.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.10 से दी जायेगी।
18	आई सी—42766	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
	ए/ब्रिग राजेश पुरी, ई एम ई	
19	आई सी-42767 ए/ब्रिग अनिल हुड्डा, आर्मड	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.10 से दी जायेगी।
20	आई सी-42768 ए/ब्रिग ए सलीम, राजपूत	05.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.10 से दी जायेगी।
21	आई सी-42771 ए/ब्रिग संजय सिंह, एस एम, वी एस एम, पैरा	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.10 से दी जायेगी।
22	आई सी-42773 ए/ब्रिग एस के शर्मा, जैक रिफ	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.10 से दी जायेगी।
23	आई सी-42774 ए/ब्रिग पी के जायसवाल, वी एस एम, राज रिफ	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.10 से दी जायेगी।
24	आई सी-42775 ए/ब्रिग जय राम कुमार, इंजीनियर्स	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.10 से दी जायेगी।
25	आई सी- 42777 ए/ब्रिग आर आर पाटिल, आर्टि (जीसी)	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.10 से दी जायेगी।
26	आई सी-42779 ए/ब्रिग वाई कपूर, आर्मड	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.10 से दी जायेगी।
27	आई सी-42780 ए/ब्रिग ए के सिंह, एस एम, ग्रेन	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.10 से दी जायेगी।
28	आई सी-42781 ए/ब्रिग यू वी तलुर, ए ए डी	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.10 से दी जायेगी।
29	आई सी-42782 ए/ब्रिग डी ओभराय, आर्टि	23.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.10 से दी जायेगी।
30	आई सी-42785 ए/ब्रिग बी पी जैकोब, सिक्ख	23.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.10 से दी जायेगी।
31	आई सी-42786 ए/ब्रिग सुरीन्दर यादव, ए एस सी	23.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.10 से दी जायेगी।
32	आई सी-42788 ए/ब्रिग जे के गौतम, आर्टि	28.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.10 से दी जायेगी।
33	आई सी-42790 ए/ब्रिग एच पन्त, एस एम, मद्रास	28.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.10 से दी जायेगी।
34	आई सी-42792 ए/ब्रिग ए के सूरी, ए वी एन	19.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.10 से दी जायेगी।
35	आई सी-42794 ए/ब्रिग एम वी एस कुमार, आसाम	28.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.10 से दी जायेगी।
36	आई सी-42795 ए/ब्रिग जे भोला, सिग्स	01.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
37	आई सी-42796 ए/ब्रिग के सी पंचानाथन, इंजीनियर्स	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.10 से दी जायेगी।
38	आई सी-42797 ए/ब्रिग ए एस चाहिल, एस एम, मराठा लाई	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.10 से दी जायेगी।
39	आई सी-42802 ए/ब्रिग बी सी खंडूरी, आर्टि (जीसी)	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.10 से दी जायेगी।
40	आई सी-42804 ए/ब्रिग एन एस राजपुरोहित, ए एस सी	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.10 से दी जायेगी।
41	आई सी-42805 ए/ब्रिग रतन कुमार, आर्टि	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.10 से दी जायेगी।
42	आई सी-42806 ए/ब्रिग एस के झा, डोगरा	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.10 से दी जायेगी।
43	आई सी-42807 ए/ब्रिग जे एस राजपुरोहित, जैक रिफ	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.10 से दी जायेगी।
44	आई सी-42811 ए/ब्रिग बी एस शेखावत, जैक लाई	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.10 से दी जायेगी।
45	आई सी-42812 ए/ब्रिग आर शर्मा, आर्टि	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.10 से दी जायेगी।
46	आई सी-42813 ए/ब्रिग सी वी अजय, 1 जी आर	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.10 से दी जायेगी।
47	आई सी-42818 ए/ब्रिग एच कोहली, सिक्ख	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.10 से दी जायेगी।
48	आई सी-42825 ए/ब्रिग एस के नारायन, एस एम, जाट	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.10 से दी जायेगी।
49	आई सी-42831 ए/ब्रिग रूपिन्दर सिंह, आर्टि	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.10 से दी जायेगी।
50	आई सी-42833 ए/ब्रिग गजिन्दर सिंह, गढ रिफ	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.10 से दी जायेगी।
51	आई सी-42838 ए/ब्रिग पी आर मुरली, आर्टि	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.10 से दी जायेगी।
52	आई सी-42843 ए/ब्रिग आर झलदियाल, एस एम, राजपूत	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.10 से दी जायेगी।
53	आई सी-42845 ए/ब्रिग ए कौरा, एस एम, जाट	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.10 से दी जायेगी।
54	आई सी-42848 ए/ब्रिग रवि, आर्टि	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.10 से दी जायेगी।
55	आई सी-42852 ए/ब्रिग आशिष जिन्दल, मेक इंफ	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
56	आई सी-42853 ए/ब्रिग गौतम ओबराय, आर्मड	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.10 से दी जायेगी।
57	आई सी-42857 ए/ब्रिग जी एस कहलोन, पंजाब	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.10 से दी जायेगी।
58	आई सी-42862 ए/ब्रिग वाई एस मोर, एस एम, मेक इंफ	01.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.10 से दी जायेगी।
59	आई सी-42881 ए/ब्रिग संजय रिहानी, इंजीनियर्स	01.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.10 से दी जायेगी।
60	आई सी-42885 ए/ब्रिग एस ठाकुर, वाई एस एम, पैरा	30.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.10 से दी जायेगी।
61	आई सी-42887 ए/ब्रिग पी के चहल, इंट	15.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.10 से दी जायेगी।
62	आई सी-42897 ए/ब्रिग एच के पोखरियाल, इंजीनियर्स	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.10 से दी जायेगी।
63	आई सी-42906 ए/ब्रिग टी एस संधु, बिहार	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.10 से दी जायेगी।
64	आई सी-42915 ए/ब्रिग आर वी सिंह, ए एस सी	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.10 से दी जायेगी।
65	आई सी-42919 ए/ब्रिग मनोज कुमार, आर्टि	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.10 से दी जायेगी।
66	आई सी-42921 ए/ब्रिग आर यादव, इंट	15.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.10 से दी जायेगी।
67	आई सी-42926 ए/ब्रिग बी कलिता, कुमाउं	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.10 से दी जायेगी।
68	आई सी-42958 ए/ब्रिग एच एम अयर, आर्टि	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.10 से दी जायेगी।
69	आई सी-42976 ए/ब्रिग पी एस जुल्का, आर्टि	01.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.10 से दी जायेगी।
70	आई सी-42982 ए/ब्रिग पी एस चंडोक, ए ओ सी	29.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.10 से दी जायेगी।
71	आई सी-42992 ए/ब्रिग ए के शर्मा, सिग्स	01.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.10 से दी जायेगी।
72	आई सी-43009 ए/ब्रिग ए नारायण, ए ए डी	25.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.10 से दी जायेगी।
73	आई सी-43021 ए/ब्रिग जी एस रावत, एस एम, डोगरा	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.10 से दी जायेगी।
74	आई सी-43033 ए/ब्रिग जी एन रघुराम, आर्टि	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
75	आई सी—43073 ए/ब्रिग आर रैना, सिक्ख	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.10 से दी जायेगी।
76	आई सी—43102 ए/ब्रिग दीपेन्द्र सिंह, ए ओ सी	29.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.10 से दी जायेगी।
77	आई सी—43126 ए/ब्रिग प्रदीप सोफत, सिक्ख	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.10 से दी जायेगी।
78	आई सी—43127 ए/ब्रिग एन कुमार, ए एस सी	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.10 से दी जायेगी।
79	आई सी—43129 ए/ब्रिग एम भटनागर, गढ रिफ	14.05.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.10 से दी जायेगी।
80	आई सी— 43149 ए/ब्रिग के वेंकटरमन, ए ओ सी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.10 से दी जायेगी।
81	आई सी—43210 ए/ब्रिग बिनोद कुमार, ए ई सी	29.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.10 से दी जायेगी।
82	आई सी—42902 ए/ब्रिग देविन्दर सिंह, आर्मड	01.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.10 से दी जायेगी।
83	आई सी—44856 ए/ब्रिग विक्रम जोशी, इंजीनियर्स	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.10 से दी जायेगी।
84	आई सी—44862 ए/ब्रिग ओ पी यादव, एस एम, ई एम ई	05.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.10 से दी जायेगी।
85	आई सी—44869 ए/ब्रिग राजीव कुमार सिंह, ई एम ई	15.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.10.10 से दी जायेगी।
86	आई सी—44870 ए/ब्रिग डी एम गुप्ता, इंजीनियर्स (जीसी)	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.10.10 से दी जायेगी।
87	आई सी—44885 ए/ब्रिग राजेश जायसवाल, ई एम ई	27.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.10.10 से दी जायेगी।
88	आई सी—44900 ए/ब्रिग गुरगोपाल सिंह, इंजीनियर्स	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.10.10 से दी जायेगी।
89	आई सी—44902 ए/ब्रिग संजय शर्मा, ई एम ई	29.06.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.10.10 से दी जायेगी।
90	आई सी—44919 ए/ब्रिग ए वी रमेश, ई एम ई	01.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.10.10 से दी जायेगी।
91	आई सी—44921 ए/ब्रिग एस एल जोशी, ई एम ई	01.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.10.10 से दी जायेगी।
92	आई सी—44920 ए/ब्रिग एच के रथ, इंजीनियर्स	01.09.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.10.10 से दी जायेगी।
93	आई सी—45435 ए/ब्रिग राम निवास, वी एस एम, राजपूत	01.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
94	आई सी-45437 ए/ब्रिग एस एस राघव, कुमाउं	01.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.10.10 से दी जायेगी।
95	आई सी-45439 ए/ब्रिग ए भट्टाचार्य, आर्मड	06.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.10.10 से दी जायेगी।
96	आई सी-45446 ए/ब्रिग जे पी तिवारी, ए ओ सी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.10.10 से दी जायेगी।
97	आई सी-43216 ए/ब्रिग बी पी सिंह, ई एम ई	02.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.10.10 से दी जायेगी।
98	आई सी-43218 ए/ब्रिग पी एस मिन्हास, आर्मड	09.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.10.10 से दी जायेगी।
99	आई सी-43219 ए/ब्रिग आलोक कक्कड़, 9 जी आर	09.07.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.10.10 से दी जायेगी।
100	आई सी-43222 ए/ब्रिग बी एस रावत, ई एम ई	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.10.10 से दी जायेगी।
101	आई सी-43223 ए/ब्रिग आर के झा, इंजीनियर्स	01.09.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.10.10 से दी जायेगी।
102	आई सी-43225 ए/ब्रिग जी एस शान, ए ओ सी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.10.10 से दी जायेगी।
103	आई सी-43228 ए/ब्रिग एम राजेन्द्रन, ई एम ई	24.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.10.10 से दी जायेगी।
104	आई सी-43231 ए/ब्रिग एस एस जोहल, ए ओ सी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.10.10 से दी जायेगी।
105	आई सी-43232 ए/ब्रिग मोहित नोटियाल, इंजीनियर्स	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.10.10 से दी जायेगी।
106	आई सी-43235 ए/ब्रिग एम डी चाको, एम एल लाई	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.10.10 से दी जायेगी।
107	आई सी-43236 ए/ब्रिग संजीव खत्री, 8 जी आर	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.10.10 से दी जायेगी।
108	आई सी-43238 ए/ब्रिग संजय रावल, सिग्स	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.10.10 से दी जायेगी।
109	आई सी-43239 ए/ब्रिग हरिन्दर सिंह, आर्टि	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.10.10 से दी जायेगी।
110	आई सी-43244 ए/ब्रिग एम एस जोधा, ए एस सी	01.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.10.10 से दी जायेगी।
111	आई सी-43249 ए/ब्रिग एम के सागोच, 4 जी आर	21.08.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.10.10 से दी जायेगी।
112	आई सी-43252 ए/ब्रिग के एच गवास, सिग्स	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.10.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
113	आई सी—43254 ए/ब्रिग एस एस कहलोन, इंजीनियर्स	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.10.10 से दी जायेगी।
114	आई सी—43262 ए/ब्रिग ए अरुण, एस एम, ग्रेन	01.09.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.10.10 से दी जायेगी।
115	आई सी—43272 ए/ब्रिग आर वी सधोत्रा, ए एस सी	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.10.10 से दी जायेगी।
116	आई सी—43273 ए/ब्रिग ए सामन्ता, जैक लार्ड	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.10.10 से दी जायेगी।
117	आई सी—43275 ए/ब्रिग एम एस तोमर, आर्मड	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.10.10 से दी जायेगी।
118	आई सी—43280 ए/ब्रिग आर एल पात्रो, मद्रास	05.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.10.10 से दी जायेगी।
119	आई सी—43238 ए/ब्रिग जे दहिया, ए ए डी	29.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.10.10 से दी जायेगी।
120	आई सी—43284 ए/ब्रिग ए के गुप्ता, आर्टि	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.10 से दी जायेगी।
121	आई सी—43285 ए/ब्रिग डी पी पाण्डे, वी एस एम, सिक्ख लार्ड	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.10 से दी जायेगी।
122	आई सी—43294 ए/ब्रिग ए के पाण्डे, वी एस एम, जाट	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.10 से दी जायेगी।
123	आई सी—43295 ए/ब्रिग रविन खोसला, 5 जी आर	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.10 से दी जायेगी।
124	आई सी—43296 ए/ब्रिग वी के मिश्रा, जैक रिफ	01.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.11.10 से दी जायेगी।
125	आई सी—43297 ए/ब्रिग जे एस सिदाना, ई एम ई	24.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.11.10 से दी जायेगी।
126	आई सी—43298 ए/ब्रिग एस एस बिरडी, सिग्स	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.11.10 से दी जायेगी।
127	आई सी—43307 ए/ब्रिग एन राजकुमार, एस एम, बिहार	05.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.11.10 से दी जायेगी।
128	आई सी—43320 ए/ब्रिग आर भाटिया, जाट	15.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.11.10 से दी जायेगी।
129	आई सी—43326 ए/ब्रिग एम मेहरोत्रा, इंजीनियर्स	15.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.11.10 से दी जायेगी।
130	आई सी—43330 ए/ब्रिग जे एस संधु, राजपूत	19.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.11.10 से दी जायेगी।
131	आई सी—43333 ए/ब्रिग के नारायणन, एम एल आई	19.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.11.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
132	आई सी—43343 ए/ब्रिग राजीवा कुमार, एस एम, सिक्ख लाई	26.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.11.10 से दी जायेगी।
133	आई सी—43355 ए/ब्रिग गुरदयाल सिंह, इंजीनियर्स	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.11.10 से दी जायेगी।
134	आई सी—43364 ए/ब्रिग एस एस खारा, इंट	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.11.10 से दी जायेगी।
135	आई सी—43365 ए/ब्रिग जे होटा, सिग्स	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.11.10 से दी जायेगी।
136	आई सी—43370 ए/ब्रिग जे पी मैथ्यू, वी एस एम, पंजाब	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.11.10 से दी जायेगी।
137	आई सी—43371 ए/ब्रिग आर नंदा, पंजाब	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.11.10 से दी जायेगी।
138	आई सी—43389 ए/ब्रिग पी के सिंह, गढ़ रिफ	01.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.11.10 से दी जायेगी।
139	आई सी—43393 ए/ब्रिग आर ए मंधार, ए ओ सी	01.06.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.11.10 से दी जायेगी।
140	आई सी—43395 ए/ब्रिग एम के बिंदल, ए ए डी	25.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.11.10 से दी जायेगी।
141	आई सी—43399 ए/ब्रिग अजित सिंह, ग्रेन	09.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.11.10 से दी जायेगी।
142	आई सी—43407 ए/ब्रिग एस पावामणि, आर्टि	19.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.11.10 से दी जायेगी।
143	आई सी—43421 ए/ब्रिग के एस राव, डोगरा	19.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.11.10 से दी जायेगी।
144	आई सी—43423 ए/ब्रिग एस तिवारी, आर्टि	30.11.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.11.10 से दी जायेगी।
145	आई सी—43426 ए/ब्रिग अतेश चाहर, कुमाउ	01.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.11.10 से दी जायेगी।
146	आई सी—43428 ए/ब्रिग वी एस यादव, राजपूत	01.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.11.10 से दी जायेगी।
147	आई सी—43429 ए/ब्रिग बी सी शर्मा, सिग्स	04.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.11.10 से दी जायेगी।
148	आई सी—43440 ए/ब्रिग आर लोवे, आर्टि	06.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.11.10 से दी जायेगी।
149	आई सी—43443 ए/ब्रिग एस एस संघु, एस एम, आर्टि	07.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.11.10 से दी जायेगी।
150	आई सी—43444 ए/ब्रिग पी जी के मेनन, सिक्ख	07.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.11.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
151	आई सी—43445 ए/ब्रिग ए खंडपुर, आर्टि	08.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.11.10 से दी जायेगी।
152	आई सी—43454 ए/ब्रिग डी मुखर्जी, मराठा लाई	10.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.11.10 से दी जायेगी।
153	आई सी—43471 ए/ब्रिग एस एस सिधु, बिहार	10.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.11.10 से दी जायेगी।
154	आई सी—43472 ए/ब्रिग पी सी नैयर, सिक्ख	11.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.11.10 से दी जायेगी।
155	आई सी—43479 ए/ब्रिग विजय सहगल, आर्टि (जीसी)	14.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.11.10 से दी जायेगी।
156	आई सी—43529 ए/ब्रिग पी कौशिक, आर्टि	16.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.11.10 से दी जायेगी।
157	आई सी—43306 ए/ब्रिग जगदीप सिंह, आर्टि	27.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.11.10 से दी जायेगी।
158	आई सी—47482 ए/ब्रिग एच एस कहलोन, इंजीनियर्स	28.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.11.10 से दी जायेगी।
159	आई सी—47483 ए/ब्रिग जे एस ईशर, इंजीनियर्स	28.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.11.10 से दी जायेगी।
160	आई सी—47523 ए/ब्रिग पी के गोयल, इंजीनियर्स	28.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.11.10 से दी जायेगी।
161	आई सी—47539 ए/ब्रिग प्रवीण कुमार, ई एम ई	28.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.11.10 से दी जायेगी।
162	आई सी—47515 ए/ब्रिग प्रबिर देब, इंजिनियर्स	31.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.11.10 से दी जायेगी।
163	आई सी—47532 ए/ब्रिग जी के स्वामी, इंजिनियर्स	31.12.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.11.10 से दी जायेगी।
164	आई सी—44434 ए/ब्रिग एस के शर्मा, एस एम, इंजीनियर्स	01.04.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.04.10 से दी जायेगी।
165	आई सी—42538 ए/ब्रिग ए सोलंकी, 11 जी आर	19.02.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.04.10 से दी जायेगी।
166	एसएल—03159 ए/ब्रिग जे एस जसवाल, एस एल (आर ओ)	01.06.11

पी के पटनायक
निदेशक एम एस (एक्स)

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 217, दिनांक 09 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं—

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कर्नल नुपूर चन्दा	एन आर-17895 ए	15 मई 2014
कर्नल वल्सा ई मैथ्यू	एन आर-17868 डब्ल्यू	15 मई 2014
ले. कर्नल(समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)		
ले. कर्नल बिजेन्द्री देवी	एन आर-18433 ए	21 फरवरी 2014

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

थल सेना विभाग

सं. 218, दिनांक 10 सितम्बर 2014—थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
कैप्टन से मेजर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी एस -12385पी	कप्तान	कर्म जीत सिंह जसवाल	03 सितम्बर 2012
ख	डी एस -12409एन	कप्तान	सौम्यजित कुमार सोंतरा	14 सितम्बर 2012
ग	डी एस -12353एम	कप्तान	चन्दन मिश्रा	01 जुलाई 2013
घ	डी एस -12327एल	कप्तान	वरुण जी	09 जुलाई 2013
ड.	डी एस -12356ए	कप्तान	नवनीत	17 अगस्त 2013
च	डी एस -12354पी	कप्तान	मुनि वेंकटेश एस	14 जनवरी 2014
छ	डी एस -12355एक्स	कप्तान	शशोक शर्मा	07 फरवरी 2014
ज	डी एस -12357एच	कप्तान	अनुराग पाल सिंह	19 फरवरी 2014
झ	डी एस -12359एन	कप्तान	नानावटी गौतम दिलीप	24 फरवरी 2014
ण	डी एस -12361एल	कप्तान	सन्नी बांगा	26 फरवरी 2014
त	डी एस -12364वाई	कप्तान	राकेश कुमार शर्मा	27 फरवरी 2014
थ	डी एस -12365एफ	कप्तान	अश्विन एस बनारि	28 फरवरी 2014
द	डी एस -12366के	कप्तान	बोपणा बि बि	28 फरवरी 2014
ध	डी एस -12367एम	कप्तान	पामिल बनोत्रा	02 मार्च 2014

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना शाखा

सं. 219, दिनांक 11 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं।

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग असिस्टेन्ट)

सूबेदार	सुशान्त कुमार बेहरा	जेसी-695419एल	03 जनवरी 2013*
सूबेदार	सतपाल सिंह	जेसी-695603डब्ल्यू	01 जनवरी 2013
(*सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	पिन्टू कुमार बिश्वास	जेसी-695565एल	01 फरवरी 2013
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	गोरख नाथ यादव	जेसी-695494पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	जेसी-695564एच	01 मार्च 2013
सूबेदार	महेश कुमार	जेसी-695498एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	सुखबीर सिंह	जेसी-695950पी	01 मार्च 2013
(*सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	मधुसूदन एस	जेसी-695571वाई	01 अप्रैल 2013
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	मनवार सिंह	जेसी-695536डब्ल्यू	01 मई 2013
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	स्वप्न कुमार बिश्वास	जेसी-695912वाई	29 जून 2013**
(**सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	वीरेन्द्र कुमार	जेसी-695463पी	01 सितम्बर 2013
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	सतबीर सिंह	जेसी-695747वाई	01 अक्टूबर 2013
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।)			

स्थायी सूबेदार (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	भूप सिंह	जेसी-695435एच	12 सितम्बर 2009*
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार सी के	जेसी-695616एन	16 सितम्बर 2009*
*(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मन्जीत कुमार सिंह	जेसी-695618एन	31 जनवरी 2011**
**(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सोहन लाल	जेसी-695698एफ	01 मार्च 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार राम प्रकाश पचौरी जेसी-695882एम 14 जुलाई 2011***

*** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार हेम राज सिंह जेसी-695959के 16 सितम्बर 2011****

**** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 जुलाई 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार रामू तिवारी जेसी-696018एच 26 नवम्बर 2011\$

\$(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जवानजल संजय बापूराव जेसी-697161एफ 01 जुलाई 2012

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पाल जेसी-697123एफ 01 अगस्त 2012

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार उमेश कुमार सिंह जेसी-697124एन 01 जनवरी 2013

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह जेसी-697125डब्लू 01 जनवरी 2013

नायब सूबेदार प्रबीर बनर्जी जेसी-697126वाई 01 जनवरी 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार शान्ति डे जेसी-697162के 01 फरवरी 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सूबेदार प्रसाद यादव जेसी-697889पी 01 मार्च 2013

नायब सूबेदार प्रभाकर सिंह जादौन जेसी-697962एच 01 मार्च 2013

नायब सूबेदार राजेश प्रसाद जेसी-698124ए 01 मार्च 2013

नायब सूबेदार ब्रह्मदेव सिंह जेसी-698304एच 01 मार्च 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार हितेश दास जेसी-698403एल 01 अप्रैल 2013\$\$

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार जेसी-698404एन 01 अप्रैल 2013\$\$

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार शर्मा जेसी-698376एम 29 जुलाई 2013\$\$

नायब सूबेदार धनपत सिंह जेसी-698424एफ 01 अप्रैल 2013\$\$

\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार आनहदी कुमार दुबे जेसी-698473के 01 मई 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश जेसी-697734ए 04 फरवरी 2013*

(*सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह जेसी-697737एन 22 फरवरी 2013**

(**सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	राज सिंह	जेसी—697833एच	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	जितेन्द्र कुमार	जेसी—697834एल	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	अनिल सिरसत	जेसी—697835एन	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सरकाटे देव राऊ सुख देव	जेसी—697893एक्स	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सुनील कुमार	जेसी—697836 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	बाँके लाल यादव	जेसी—697944ए	01 मार्च 2013

(*सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी—697949वाई	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	देव प्रोसाद होरे	जेसी—697950एन	01 अप्रैल 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र गुर्जवार	जेसी—698072पी	01 मई 2013
--------------	----------------------	---------------	------------

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	देसाई रमेश राजा राम	जेसी—698138ए	21 जून 2013***
--------------	---------------------	--------------	----------------

(***सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह	जेसी—698175एन	02 सितम्बर 2013#
नायब सूबेदार	बृज बिहारी सिंह	जेसी—698176डब्ल्यू	02 सितम्बर 2013#

(#सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	भरत सिंह	जेसी—698210एल	01 अक्टूबर 2013
--------------	----------	---------------	-----------------

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।)

स्थायी सूबेदार (हेल्थ असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	कृष्ण गोपाल बिश्वास	जेसी—693254वाई	18 मई 2010*
--------------	---------------------	----------------	-------------

*(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	जेसी—693336एफ	27 जुलाई 2010**
नायब सूबेदार	रमेश सिंह	जेसी—693263ए	20 अगस्त 2010**

** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	रोशन लाल	जेसी—693380एल	01 जुलाई 2010
--------------	----------	---------------	---------------

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	शंकर दत्त	जेसी—693768	01 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	जेसी—693381एन	01 अक्टूबर 2010***
नायब सूबेदार	धर्म चन्द	जेसी—693382डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2010***

*** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	बिश्वजीत घोष	जेसी—693406पी	01 नवम्बर 2010
नायब सूबेदार	वीरेन्द्र नारायण	जेसी—693407एक्स	01 नवम्बर 2010

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार विलास यल्लुरकर जेसी—693500वाई 13 जनवरी 2011****

****(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार राकेश कुमार सूद जेसी—693573एल 13 जून 2011\$

\$(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार संजय कुमार दास जेसी—693766एल 29 अगस्त 2011\$\$

नायब सूबेदार शिन्दे नामदेव महादेव जेसी—693521पी 01 सितम्बर 2011\$\$

नायब सूबेदार बद्री प्रसाद तिवारी जेसी—693649ए 02 सितम्बर 2011\$\$

नायब सूबेदार राज कँवर जेसी—693650पी 08 अक्टूबर 2011\$\$

\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 जुलाई 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार मनी राम जेसी—693852डब्लू 18 नवम्बर 2011\$\$\$

नायब सूबेदार छवन्द सिंह जेसी—693853वाई 17 नवम्बर 2011\$\$\$

\$\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार कृष्णन कुट्टी डी जेसी—693945एल 05 जनवरी 2012#

नायब सूबेदार हरी कुमार आर जेसी—694092एल 01 जनवरी 2012#

नायब सूबेदार वेद प्रकाश जेसी—694158डब्लू 03 फरवरी 2012#

#(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार शंकर दत्त जेसी—694183पी 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार मिश्रा जेसी—694228के 01 फरवरी 2012

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार पूना राम मेघवाल जेसी—694369वाई 29 मार्च 2012##

##(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार बलवान सिंह जेसी—695081एल 01 अप्रैल 2012

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह जेसी—695124पी 16 जुलाई 2012###

###(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार राम प्रकाश पटेल जेसी—695135एफ 20 अक्टूबर 2012####

नायब सूबेदार एस कन्डाराज जेसी—695437एन 01 सितम्बर 2012####

####(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार कौशल किशोर सिंह जेसी—695436एल 01 अक्टूबर 2012^

नायब सूबेदार कराड बालुमहाडू जेसी—695391डब्लू 01 अक्टूबर 2012^

नायब सूबेदार अनन्ता बोरसाइकिया जेसी—695392वाई 19 अक्टूबर 2012^

^(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार पटिल पाण्डुरंग गोविन्द जेसी—695807एच 09 जनवरी 2013^^

^^ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र जेसी—695830डब्लू 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार सज्जन कुमार जेसी—695615एल 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार मोहन नाथ जेसी—696086डब्लू 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार राम किशन जेसी—696248डब्लू 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार बालम सिंह परिहार जेसी—696249वाई 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार लेमस कुमार जेसी—697132एम 01 जनवरी 2013^^^

नायब सूबेदार राजनाथ सिंह यादवा जेसी—696250एम 09 जनवरी 2013^^^

^^^ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सदारी प्रसाद चौहान जेसी—696227ए 01 मार्च 2013

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह जेसी—696615एक्स 01 मार्च 2013

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।)

स्थायी सूबेदार (डेंटल हाईजीनिस्ट)

नायब सूबेदार गुदाल सिंह जेसी—696225पी 01 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार शाजी के पी जेसी—696343एच 06 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार राम शब्द चौहान जेसी—696394डब्लू 05 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार ब्रिजेश कुमार राय जेसी—696395वाई 12 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार प्रेम प्रकाश सिंह जेसी—696396एफ 12 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार बाबू राम बदलिया जेसी—696397के 09 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम तिवारी जेसी—696826ए 01 नवम्बर 2010**

नायब सूबेदार पशुपतिनाथ जेसी—696398एम 19 जून 2010**

नायब सूबेदार जय जिन्दर सिंह जेसी—696400वाई 19 जून 2010**

नायब सूबेदार धीरेन कुमार सिंघा जेसी—696401एफ 26 जून 2010**

** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार गन्डावल्ला मनोज कुमार जेसी—696600पी 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह जेसी—696700ए 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार अम्बिका प्रसाद दुबे जेसी—696627एम 01 नवम्बर 2010

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार विनय कुमार तोमर जेसी—696628पी 01 दिसम्बर 2010

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार मोनोतोश लोध जेसी—696629एक्स 01 मई 2011***

नायब सूबेदार शिव बालक राय जेसी—696701एच 16 मई 2011***

***सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सूर्यजतन शर्मा	जेसी—696854एम	16 जून 2011****
नायब सूबेदार	वीरनारायण सिंह	जेसी—697096एम	01 जुलाई 2011****
नायब सूबेदार	प्रकाश कुमार पी बी	जेसी—697213एम	15 जून 2011****
नायब सूबेदार	रामानन्द महतो	जेसी—697338एम	04 जुलाई 2011****

****(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	अप्रेश चन्द्र साहा	जेसी—697214पी	01 अगस्त 2011
--------------	--------------------	---------------	---------------

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	कृष्ण पाल सिंह	जेसी—697339एम	07 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	राकेश कुमार सिंह	जेसी—697453के	10 अक्टूबर 2011 \$
नायब सूबेदार	निरंजन कुमार सिंह	जेसी—697416एन	06 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी—697417वाई	05 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	जय प्रकाश के	जेसी—697522पी	07 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	ललित कुमार सिंह	जेसी—697476एल	05 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	बिजेन्द्र सिंह मुन्डवरिया	जेसी—697525एच	07 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	महेश चन्द्र	जेसी—697496वाइ	06 अक्टूबर 2011\$
नायब सूबेदार	अरुण कुमार सिंह	जेसी—697738डब्लू	07 अक्टूबर 2011\$

\$(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	गुप्तेश्वर नाथ चतुर्वेदी	जेसी—698058एच	01 अक्टूबर 2012\$\$
नायब सूबेदार	धनवीर सिंह	जेसी—697508एच	01 नवम्बर 2011\$\$

\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	राकेश सिंह भदौरिया	जेसी—697556एच	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	लखी बोरा	जेसी—697585एक्स	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	आनन्द सिंह बिष्ट	जेसी—697740एन	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	सुनील फवकोन	जेसी—697586ए	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	उदय राज सिंह	जेसी—697756वाई	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	के थिरुगना साम बन्दम	जेसी—697757एफ	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	मोहम्मद इस्माइल ए	जेसी—697803एल	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	एस शेन पहा मुर्ति	जेसी—697804एन	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	उमेश पाटले	जेसी—697844पी	01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सुनील कुमार सिंह	जेसी—698059एल	01 अक्टूबर 2012\$\$\$
नायब सूबेदार	डब्लु सिंह भण्डारी	जेसी—698180वाई	01 अक्टूबर 2012\$\$\$
नायब सूबेदार	सुब्रता देब	जेसी—698116एफ	20 नवम्बर 2012\$\$\$
नायब सूबेदार	आर किशोर कुमार रेड्डी	जेसी—698551डब्लू	01 अक्टूबर 2013\$\$\$

नायब सूबेदार	दीनदयालन एम	जेसी—698827एफ 01 अक्टूबर 2013\$\$\$
\$\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	नरेन्द्र सिंह	जेसी—698117के 01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	कोशल कुमार	जेसी—698147एफ 01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	शिवू जोसेफ	जेसी—698227वाई 01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	ब्रज मोहन पाण्डेय	जेसी—698279पी 01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	वी लक्ष्मण मूर्ति	जेसी—698280के 01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	मिथिलेश कुमार सिंह	जेसी—698228एफ 01 दिसम्बर 2012
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	हरीश चन्द्र पटेल	जेसी—698281एम 13 फरवरी 2013#
# (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 20 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	रमेश एस	जेसी—698282पी 06 मई 2013##
## (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)		
स्थायी सूबेदार (डेंटल टेकनीशियन)		
नायब सूबेदार	बिराडे मधुकर ईश्वर	जेसी—694102के 01 नवम्बर 2009*
नायब सूबेदार	सुधीरा कुमार परीदा	जेसी—694292एफ 11 नवम्बर 2009*
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार पटिक्कल	जेसी—694295पी 11 नवम्बर 2009*
* (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी—694665के 01 मई 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी—694558एच 02 अगस्त 2010**
नायब सूबेदार	रवि करन	जेसी—694667पी 21 जून 2010**
नायब सूबेदार	अभिमन्यू सिंह	जेसी—694908के 03 अगस्त 2010**
** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी।)		
नायब सूबेदार	एन रामा चन्द्रन	जेसी—695059ए 05 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	निसारुददीन एम	जेसी—695990डब्लू 25 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	हरि राम	जेसी—695095एच 07 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	वेणुगोपाल एस	जेसी—695450एक्स 03 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	जगू मंत्री मोहन राव	जेसी—695660एक्स 12 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	कुसुम्बर स्वारगेरी	जेसी—695551एल 18 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	नियाज अहमद	जेसी—695662एच 05 अक्टूबर 2011***
नायब सूबेदार	देवेन्द्र प्रसाद सिंह	जेसी—696603एच 03 अक्टूबर 2011***
*** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2011 से दी जायेगी।)		

नायब सूबेदार	लाभ सिंह	जेसी—695883पी	01 अक्टूबर 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी—695928के	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	कबीर अहमद बेग एन	जेसी—696093एम	01 नवम्बर 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रियोब्रता सिंधा	जेसी—696708एम	28 फरवरी 2012****
****(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मंगल राम	जेसी—695204वाई	01 अप्रैल 2012\$
नायब सूबेदार	दोरुगडे रामचन्द्र बाबू	जेसी—696100एक्स	01 अप्रैल 2012\$
नायब सूबेदार	प्रवीन कुमार	जेसी—695386एक्स	02 अप्रैल 2012\$
\$(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी।)			
स्थायी सूबेदार (साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेन्ट)			
नायब सूबेदार	गिरिजेश कुमार मिश्रा	जेसी—695480पी	05 मार्च 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी—696017ए	01 अप्रैल 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	एन नीराथिलिंगम	जेसी—696104एन	01 सितम्बर 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अशोक कुमार साहू	जेसी—696207एम	01 मार्च 2011
नायब सूबेदार	मिर्जा नौशाद बेग	जेसी—696605एन	01 मार्च 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रेम बल्लभ	जेसी—696728ए	01 दिसम्बर 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राम मूर्ति	जेसी—697023ए	01 जुलाई 2012*
नायब सूबेदार	उमराव सिंह	जेसी—697382एन	02 जुलाई 2012*
*(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजवीर सिंह	जेसी—697131के	01 सितम्बर 2012**
नायब सूबेदार	सजीवन नायर सी	जेसी—697157वाई	29 सितम्बर 2012**
नायब सूबेदार	अशोक कुमार झा	जेसी—697445एन	28 सितम्बर 2012**
नायब सूबेदार	राजा राम	जेसी—697491ए	28 सितम्बर 2012**
नायब सूबेदार	बरुन कुमार सिंह	जेसी—697523एक्स	29 सितम्बर 2012**
नायब सूबेदार	दिनेश सिंह	जेसी—697710डब्ल्यू	29 सितम्बर 2012**

नायब सूबेदार	महेन्द्रपाल सिंह गुसाईं	जेसी-697711वाई	25 सितम्बर 2012**
(**सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुरिंद्र कुमार	जेसी-697971के	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	सुभाष कुमार शर्मा	जेसी-697972एम	01 अक्टूबर 2012
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	एम नाबा कुमार सिंघां	जेसी-698323एन	01 नवम्बर 2012
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	पाटिल प्रभाकर शंकर	जेसी-698472एफ	01 जनवरी 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शंभू मंडल	जेसी-698472एफ	04 जुलाई 2013***
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार	जेसी-698512एक्स	10 जुलाई 2013***
(***)सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)			

स्थायी सूबेदार (फिजियोथेरापिस्ट)

नायब सूबेदार	मेघ राज सिंह	जेसी-695428एम	20 अगस्त 2010*
*(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अमीर सिंह	जेसी-695639पी	01 नवम्बर 2010
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार मौर्या	जेसी-695922एच	01 नवम्बर 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रघुनाथ पी आर	जेसी-696085एम	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	नथुनी राम	जेसी-696095एक्स	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द	जेसी-696226एक्स	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	गोपाला कृष्णन के	जेसी-696391एच	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	सतनाम सिंह	जेसी-696410एच	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	आर सेकर	जेसी-696493वाई	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	अजीत कुमार वर्मा	जेसी-696610वाई	01 दिसम्बर 2010
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मन्गी लाल	जेसी-696617एच	01 जनवरी 2011
नायब सूबेदार	गोपीनाथन ए	जेसी-696698एन	01 जनवरी 2011
नायब सूबेदार	जय प्रकाश	जेसी-696618एल	01 जनवरी 2011
नायब सूबेदार	बलवान सिंह	जेसी-696817वाई	01 जनवरी 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रकाश सुब्बा	जेसी-696720एन	01 फरवरी 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	अनिल कुमार सिंह	जेसी—696721डब्ल्यू	01 मार्च 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	इय्यप्पन कुट्टी के	जेसी—696722वाई	01 दिसम्बर 2011
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी—696834वाई	25 जून 2012**
**(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मोहन कृष्णन के	जेसी—697128के	27 सितम्बर 2012***
*** (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 26 जुलाई 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुकबीर सुब्बा	जेसी—697387एम	23 अगस्त 2012\$
नायब सूबेदार	इंगले धनाजी निवृत्ती	जेसी—697129एम	24 अगस्त 2012\$
नायब सूबेदार	सौगता चक्रवर्ती	जेसी—697130एफ	25 अगस्त 2012\$
नायब सूबेदार	वी एम आर कर्तिकेयन	जेसी—697322वाई	24 अगस्त 2012\$
\$(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 26 जुलाई 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	येसूराजा थुराई पी	जेसी—697368एफ	04 अक्टूबर 2012\$\$
नायब सूबेदार	डी जनार्थनन	जेसी—697574एल	04 अक्टूबर 2012\$\$
नायब सूबेदार	अनिल कुमार ठाकुर	जेसी—697758के	01 अक्टूबर 2012\$\$
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार साहू	जेसी—697913ए	03 अक्टूबर 2012\$\$
नायब सूबेदार	बाबुल कोनवर	जेसी—697874एम	01 अक्टूबर 2012 \$\$
\$\$ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	गोविन्दन कुट्टी सी एम	जेसी—697846ए	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	सतबीर	जेसी—697847एच	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	प्रेम सिंह कठायत	जेसी—697863ए	01 नवम्बर 2012
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	दुन्ना कृष्णा राव	जेसी—697875पी	01 दिसम्बर 2012#
नायब सूबेदार	रमाशंकर चौधरी	जेसी—697848एल	20 दिसम्बर 2012#
#(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विनोद चन्द्र भट्ट	जेसी—697866एफ	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	ससे बालू रंगनाथ	जेसी—697855एफ	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	जमाल अख्तर	जेसी—697877ए	01 जनवरी 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विवेक कुमार	जेसी—697878एच	01 फरवरी 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	जेसी—697879एल	01 अप्रैल 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)			

स्थायी नायब सूबेदार (एम्बूलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार	भीम सिंह	13972343एच अब जेसी—699210एक्स 04 जनवरी 2013*
हवलदार	बिपिन कुमार	13972306पी अब जेसी—698843वाई 09 नवम्बर 2012*
(**नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	सुनील नारायन सिंह	13972724के अब जेसी—698831के 03 नवम्बर 2012**
(**नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	अर्जुन पण्डित	13973097पी अब जेसी—698836एच 01 दिसम्बर 2012
हवलदार	सेडप्पा अंगादी	13973330एक्स अब जेसी—699159एच 20 दिसम्बर 2012#
(#नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	प्रकाश चन्द्र प्रभाकर	13973640एच अब जेसी—699109एक्स 01 जनवरी 2013
हवलदार	सूर्या प्रसाद सिंह	13973710डब्ल्यू अब जेसी—699181एन 01 जनवरी 2013
हवलदार	शरत कुमार सामल	13972531के अब जेसी—699278वाई 01 फरवरी 2013##
(##नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 07 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	पतराम	13973797एच अब जेसी—699182डब्ल्यू 01 फरवरी 2013
हवलदार	राजेन्द्र सिंह यादव	13973820एल अब जेसी—699225ए 01 फरवरी 2013
हवलदार	तरुन घोष	13973914एच अब जेसी—699183वाई 13 फरवरी 2013\$
हवलदार	भरत कुमार विश्वकर्मा	13974137एक्स अब जेसी—699213एल 01 फरवरी 2013
हवलदार	यादव सुरेन्द्र सिंह जयनारायण	13974141ए अब जेसी—699184एफ 05 फरवरी 2013\$
हवलदार	श्याम लाल	13974174एल अब जेसी—699214एन 01 फरवरी 2013
(\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	जोगेन्द्र सिंह भाकुनी	13974190एच अब जेसी—699226एच 01 मार्च 2013
हवलदार	वाडलामुडी चिन्नावीरैया	13974285एच अब जेसी—699227एल 01 मार्च 2013

हवलदार	ज्योति शंकर यादव	13974347एक्स अब जेसी—699228एन 01 मार्च 2013
हवलदार	प्रहलाद शर्मा	13974344के अब जेसी—699229डब्ल्यू 01 मार्च 2013
हवलदार	लालन शाह	13974364एक्स अब जेसी—699230एल 01 मार्च 2013
हवलदार	बाल चन्द्र चतुर्वेदी	13974370एल अब जेसी—699231एन 01 मार्च 2013
हवलदार	राना कर	13974368एन अब जेसी—699232डब्ल्यू 01 मार्च 2013
हवलदार	संजीव कुमार	13974419डब्ल्यू अब जेसी—699233वाई 01 मार्च 2013
हवलदार	सुरेश सिंह	13974418एन अब जेसी—699234एफ 01 मार्च 2013
हवलदार	अजय सिंह	13974483एन अब जेसी—699235के 01 मार्च 2013
हवलदार	कृष्णन उन्नी के	13974761डब्ल्यू अब जेसी—699273ए 01 मार्च 2013
हवलदार	हीरा प्रसाद	13974771ए अब जेसी—699236एम 01 मार्च 2013
हवलदार	आनन्दा बिजागरकर	13974824एन अब जेसी—699361डब्ल्यू 01 अप्रैल 2013
हवलदार	रवीन्द्र कुमार	13974832एम अब जेसी—699362वाई 01 अप्रैल 2013
हवलदार	संजय कुमार	13974855एन अब जेसी—699363एफ 01 अप्रैल 2013
हवलदार	प्रभू लाल गिरासिया	13974965एच अब जेसी—699364के 01 अप्रैल 2013
हवलदार	चन्द्र भूषण यादव	13975005डब्ल्यू अब जेसी—699365एम 03 अप्रैल 2013\$\$
हवलदार	बहादुर सिंह	13974980एक्स अब जेसी—699366पी 01 अप्रैल 2013
हवलदार	राज मोहन सिंह	13974992एम अब जेसी—699367एक्स 01 अप्रैल 2013
हवलदार	मोहम्मद अबुल कलाम आजाद	13974989एम अब जेसी—699368ए 01 अप्रैल 2013
हवलदार	ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	13975001ए अब जेसी—699369एच 01 अप्रैल 2013
हवलदार	जगदम्बा प्रसाद मिश्रा	13975004एन अब जेसी—699370एक्स 01 अप्रैल 2013

हवलदार	नन्दनिया केसर भाई अराजन	13975042के अब जेसी—699371ए 01 अप्रैल 2013
हवलदार	माँगी लाल	13975063ए अब जेसी—699376वाई 01 अप्रैल 2013
हवलदार	राम कुमार ठाकुर	13975077ए अब जेसी—699372एच 01 अप्रैल 2013
हवलदार	थुलासीधारन वी	13975474वाई अब जेसी—699373एल 05 अप्रैल 2013\$\$
(\$\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	रवीन्द्र कुमार पाटिल	13975491वाई अब जेसी—699388एन 01 मई 2013
हवलदार	अरबिन्द कुमार गुप्ता	13975486एन अब जेसी—699389डब्ल्यू 01 मई 2013
हवलदार	सत्यानारायन सेनापति	13975495पी अब जेसी—699390एल 07 मई 2013***
हवलदार	देव चिरन राठौर	13975622वाई अब जेसी—699391एन 01 मई 2013
हवलदार	वीरेन्द्र पाण्डेय	13975616एल अब जेसी—699392डब्ल्यू 05 मई 2013***
हवलदार	पाटिल बलवन्त इलियास बालूडागडू	13975625एम अब जेसी—699393वाई 01 मई 2013
हवलदार	रोहतास	13975730एच अब जेसी—699394एफ 01 मई 2013
हवलदार	अमोद कुमार झा	13975848के अब जेसी—699395के 01 मई 2013
हवलदार	जगदीश चन्द्र कटारे	13975906एच अब जेसी—699396एम 01 मई 2013
हवलदार	बाबू लाल	13975899एक्स अब जेसी—699397पी 01 मई 2013
हवलदार	गोहिल गजूभा शिवू भाई	13975929के अब जेसी—699398एक्स 01 मई 2013
हवलदार	प्रेम शंकर तिवारी	13975902एम अब जेसी—699399ए 01 मई 2013
हवलदार	सेलवा कुमार जे	13975986एल अब जेसी—699400के 01 मई 2013
हवलदार	हरि नारायन सिंह	13975953ए अब जेसी—699401एम 01 मई 2013
हवलदार	बिरिजा नन्द सिंह	13975951पी अब जेसी—699408डब्ल्यू 01 मई 2013

(***नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	संजय प्रसाद सिंह	13976019एच अब जेसी—699409वाई 03 जून 2013###
हवलदार	आर रामासामी	13976159पी अब जेसी—699410एन 01 जून 2013
हवलदार	श्याम प्रकाश	13976259ए अब जेसी—699411डब्ल्यू 01 जून 2013
हवलदार	आशा राम मिश्रा	13976257पी अब जेसी—699412वाई 01 जून 2013
हवलदार	विजय बहादुर तिवारी	13976261एक्स अब जेसी—699413एफ 01 जून 2013
हवलदार	ओम प्रकाश	13976266डब्ल्यू अब जेसी—699414के 01 जून 2013
हवलदार	त्रेपन सिंह	13976272के अब जेसी—699415एम 01 जून 2013
हवलदार	इकबाल दीन	13976290एम अब जेसी—699486एन 01 जून 2013
हवलदार	सुरेश एन एस	13976308एक्स अब जेसी—699487डब्ल्यू 01 जून 2013
(###नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	सत्यन पुथियान्दी	13976305के अब जेसी—699488वाई 01 जुलाई 2013
हवलदार	आशा राम	13976316 डब्ल्यू अब जेसी—699489एफ 01 जुलाई 2013
हवलदार	अजय कुमार झा	13976385एम अब जेसी—699490डब्ल्यू 01 जुलाई 2013
हवलदार	जय प्रकाश	13976394एन अब जेसी—699491वाई 05 जुलाई 2013\$\$\$\$
हवलदार	गीता राम राठौर	13976367के अब जेसी—699492एफ 01 जुलाई 2013
(\$\$\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	कैलाश प्रसाद	13976412एल अब जेसी—699543के 01 अगस्त 2013
हवलदार	प्रसाद बाबू ओके	13976491एल अब जेसी—699544एम 01 अगस्त 2013
हवलदार	वी वी सुधाकरन	13976490एच अब जेसी—699545पी 01 अगस्त 2013
हवलदार	इन्द्रजीत दास	13976654एन अब जेसी—699546एक्स 01 अगस्त 2013
हवलदार	मनोज कुमार शर्मा	13976922एम अब जेसी—699547ए 01 अगस्त 2013

हवलदार	आजाद साह	13976925ए अब जेसी—699548एच 01 अगस्त 2013
हवलदार	दयाराम	13976953एम अब जेसी—699549एल 01 अगस्त 2013
हवलदार	ओम प्रकाश पाण्डेय	13976956ए अब जेसी—699550ए 01 अगस्त 2013
हवलदार	एस शूनमूगा डौस	13977001वाई अब जेसी—699551एच 01 अगस्त 2013
हवलदार	दामोर राज कुमार कडवाजी	13977010ए अब जेसी—699552एल 01 अगस्त 2013
स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेन्ट)		
हवलदार	जोगिन्दर सिंह	13974217पी अब जेसी—698803एक्स 01 नवम्बर 2012*
(**नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	सत्यवीर सिंह	13972027के अब जेसी—699080ए 12 दिसम्बर 2012**
हवलदार	मनोहर सिंह राठौर	13974278एम अब जेसी—699081एच 12 दिसम्बर 2012**
(**नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	विजय शंकर सिंह यादव	13975122एफ अब जेसी—698964ए 01 दिसम्बर 2012
हवलदार	दुर्गाले अरून कृष्णा	13975191एक्स अब जेसी—698969वाई 06 जुलाई 2013***
हवलदार	अशोक कुमार सिंह	13975277डब्ल्यू अब जेसी—699079एल 07 दिसम्बर 2013***
(***नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।)		
हवलदार	एस उमाशंकर	13975394एफ अब जेसी—699162एन 04 जनवरी 2013#
हवलदार	राज किशोर यादव	13975404ए अब जेसी—699224एक्स 02 फरवरी 2013#
हवलदार	केशकर हरिलाल शारदा प्रसाद	13975422एच अब जेसी—699168के 01 जनवरी 2013
हवलदार	जय सिंह	13975462के अब जेसी—699242ए 28 जनवरी 2013#
हवलदार	कमल सिंह	13975461एफ अब जेसी—699163एल 01 जनवरी 2013
हवलदार	सुरेन्द्र नाथ गिरि	13975445के अब जेसी—699164एन 01 जनवरी 2013

हवलदार	राजेन्द्र पाल	13975447पी अब जेसी—699272एक्स 21 जनवरी 2013#
हवलदार	सन्तोष कुमार सिंह	13975456डब्ल्यू अब जेसी—699165डब्ल्यू 01 जनवरी 2013
(#नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	योगेश चन्द्र मिश्रा	13975454एल अब जेसी—699249के 21 जनवरी 2013##
हवलदार	पवन कुमार	13975540डब्ल्यू अब जेसी—699250वाई 19 जनवरी 2013##
हवलदार	लक्कू बलैया	13975545पी अब जेसी—699251एफ 29 जनवरी 2013##
हवलदार	जय भगवान	13975596एच अब जेसी—699252के 01 फरवरी 2013##
हवलदार	मदन लाल साह गंगोला	13975676ए अब जेसी—699253एम 08 फरवरी 2013##
हवलदार	थाना राम गोदारा	13975638एल अब जेसी—699254पी 21 जनवरी 2013##
हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	13975722के अब जेसी—699255एक्स 22 जनवरी 2013##
हवलदार	अरविन्द कुमार पँवार	13975724पी अब जेसी—699256ए 18 जनवरी 2013##
हवलदार	दीपक शर्मा	13975736के अब जेसी—699257एच 19 जनवरी 2013##

(##नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 07 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	आर विजी	13975544एम अब जेसी—699377एफ 23 मार्च 2013###
--------	---------	---

(###नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 जनवरी 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	राम मूर्ति मिश्रा	13975779वाई अब जेसी—699258एल 01 फरवरी 2013
हवलदार	नौबत सिंह	13975808एच अब जेसी—699259एन 01 फरवरी 2013
हवलदार	प्रेमचंद	13975882के अब जेसी—699260एच 01 फरवरी 2013
हवलदार	प्रकाश चन्द	13975134डब्ल्यू अब जेसी—699261एल 01 फरवरी 2013

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	सुनील कुमार थापा	13975452ए अब जेसी—699262एन 01 मार्च 2013
--------	------------------	---

हवलदार	थामस जोसफ (मधुविले कुटटू)	13975508एफ अब जेसी—699263डब्ल्यू 01 मार्च 2013
हवलदार	मनवीर प्रसाद तिवारी	13976042डब्ल्यू अब जेसी—699264वाई 01 मार्च 2013
हवलदार	जाधव गोविन्द किशन राव	13976089एफ अब जेसी—699265एफ 01 मार्च 2013
हवलदार	गिरवर सिंह गढ़वाल	13976138वाई अब जेसी—699266के 01 मार्च 2013
हवलदार	जवारी लाल	13976129एक्स अब जेसी—699267एम 01 मार्च 2013
हवलदार	प्रभू दयाल कसाना	13976132एक्स अब जेसी—699268पी 01 मार्च 2013
हवलदार	सुनील कुमार	13976115एक्स अब जेसी—699269एक्स 06 मार्च 2013\$
हवलदार	ए सुन्दर राजन	13976180एक्स अब जेसी—699270एम 15 मार्च 2013\$
हवलदार	राजेश कुमार	13976197एल अब जेसी—699271पी 01 मार्च 2013
हवलदार	पीताम्बर त्रिपाठी	13976235डब्ल्यू अब जेसी—699318पी 01 मार्च 2013

(\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	दुर्गा राम	13974889एफ अब जेसी—699421ए 01 अप्रैल 2013\$\$
--------	------------	--

(\$\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 12 मार्च 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	सजीव एस	13976212पी अब जेसी—699319एक्स 01 अप्रैल 2013
हवलदार	सुरेन्द्र कौर	13976299एफ अब जेसी—699320एम 01 अप्रैल 2013
हवलदार	रवीन्द्र कुमार	13976302डब्ल्यू अब जेसी—699321पी 25 जुलाई 2013\$\$\$
हवलदार	जगवीर सिंह	13976321एफ अब जेसी—699322एक्स 01 अप्रैल 2013
हवलदार	कृष्ण कुमार	13976325एक्स अब जेसी—699422एच 01 अप्रैल 2013
हवलदार	अभय सिंह	13976317वाई अब जेसी—699423एल 01 अप्रैल 2013
हवलदार	अनिल कुमार	13976324पी अब जेसी—699424एन 01 अप्रैल 2013

(\$\$\$नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।)

हवलदार	ओम प्रकाश मिश्रा	13975450पी अब जेसी—699425डब्ल्यू 02 मई 2013&
हवलदार	राज कुमार	13976365वाई अब जेसी—699426वाई 01 मई 2013
हवलदार	सुभाष डाँगर	13976343ए अब जेसी—699427एफ 01 मई 2013
हवलदार	सज्जन कुमार	13976342एक्स अब जेसी—699482के 01 मई 2013
हवलदार	लावन्ड दादा साहेब बापू राव	13976457एल अब जेसी—699429एम 01 मई 2013
हवलदार	भैया लाल सिंह	13976457एल अब जेसी—699430एफ 03 मई 2013&
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	टी शंकर नारायन	13976443एल अब जेसी—699481पी 01 जून 2013
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	बीरेन्द्र सिंह यादव	13976444एन अब जेसी—699482एक्स 01 जुलाई 2013
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।)		
हवलदार	धनंजय प्रताप	13976501के अब जेसी—699594एक्स 02 सितम्बर 2013&&
हवलदार	लखविन्दर सिंह	13976486ए अब जेसी—699595ए 01 सितम्बर 2013
हवलदार	कुलदीप सिंह	13976553ए अब जेसी—699596एच 01 सितम्बर 2013
हवलदार	वेद प्रकाश	13976516एम अब जेसी—699597एल 03 सितम्बर 2013&&

(&&नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।)

अरविन्द कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 220, दिनांक 12 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से निवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
क	डी एस—12194ए	मेजर गौरव अरोडा	22.03.2013 (सायः)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th September 2014

D (MS) SECTION

No. 212, dated 2nd September 2014—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 August 2014: -

PRINCIPAL HONORARY ARMY ADC

IC-30351K General Dalbir Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC

Vice

IC-25816P General Bikram Singh, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM (Retired)

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-30723K Lt Gen Ashok Singh, PVSM, AVSM, SM, VSM

Vice

IC-30351K Lt Gen (now General) Dalbir Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC (promoted as COAS w.e.f. 01 Aug 2014)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 June 2014:—

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-30503A Lt Gen JP Nehra, PVSM, AVSM**

Vice

IC-30389N Lt Gen Sanjiv Chachra, PVSM, AVSM, VSM (Retired)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 July 2014: -

HONORARY ARMY ADC

ASC/AOC/EME

IC-34148L Lt Gen RP Rai, ASC

Vice

IC-27942A Lt Gen NB Singh, PVSM, AVSM, VSM, EME (Retired)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 August 2014:—

HONORARY (Air) ADC

Air Mshl P Kanakaraj, AVSM, VSM (15066) AE (M)

REVATI RAMAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 213, dated 3rd September 2014—The President is pleased to make the following appointments on his personal staff with effect from 29 Jun 2014(FN):—

To be Honorary Surgeon

- (a) Surg Vice Admiral Shalesh Rohatgi, VSM, DGMS (Navy)
(MR-04361W)(76221-B)
- (b) Lt Gen Ajit Singh Narula, PVSM, VSM, Comdt AH (R&R), Delhi
(MR-03738H)

YASH PANDE
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 214, dated 4th September 2014—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

Sl No	Personal Number Allotted	Rank and Name	Date of Reporting For Commissioning
(a)	DS-12553H	Capt Shalabh Saxena	13 May 2014

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 215, dated 5th September 2014—The President is pleased to appoint following Assistant Executive Engineer Group 'A' in the Corps of EME from the dates listed below. They will be on probation for a period of two years :-

S No	Name	Effectuated date for appointment
(a)	Shri Yogesh Kumar	- 16 Jul 2014
(b)	Shri Manas Kumar Behera	- 21 Jul 2014
(c)	Shri Dushyant Singh	- 16 Jul 2014
(d)	Shri Vinay Kumar Srivastava	- 14 Jul 2014
(e)	Shri Sudeep Cherian Kurian	- 19 Mar 2014
(f)	Shri Chetan Jain	- 21 Mar 2014
(g)	Shri Devendra Balotiya	- 20 Mar 2014

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 216, dated 8th September 2014—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officer :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

Sl No	IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Lt Gen
1	IC-34338	A/LT GEN	GS SHERGILL, VSM	SIKH	03.10.13

TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
1	IC-41145	A/BRIG	A BHARGAVA	AAD	10.08.12	10.08.12 with seniority from 01.10.10 without effect on pay and pension.
2	IC-41955	A/BRIG	ML ASWAL	AOC	01.03.13	01.03.13 with seniority from 01.10.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
3	IC-42032	A/BRIG	SANJAY DIKHIT	SIGS	01.05.12	01.05.12 with seniority from 01.10.10 without effect on pay and pension.
4	IC-43995	A/BRIG	RAJIV JOSHI	EME	30.12.11	01.04.12 with seniority from 01.10.10 without effect on pay and pension.
5	IC-42311	A/BRIG	SANJEEV BALI	ENGRS	01.01.12	01.04.12 with seniority from 02.10.10 without effect on pay and pension.
6	IC-42660	A/BRIG	TUSHAR ROY	AOC	01.03.13	01.03.13 with seniority from 02.10.10 without effect on pay and pension.
7	IC-45365	A/BRIG	PRAVESH PURI	ARMD	10.01.12	01.04.12 with seniority from 02.10.10 without effect on pay and pension.
8	IC-45370	A/BRIG	GS MAMAK	ASC	05.11.10	01.04.12 with seniority from 02.10.10 without effect on pay and pension.
9	IC-45374	A/BRIG	NK KHAJURIA	ASC	05.11.10	01.04.12 with seniority from 03.10.10 without effect on pay and pension.
10	IC-45419	A/BRIG	VC CHITRAVANSHI	JAG	01.06.10	01.04.12 with seniority from 03.10.10 without effect on pay and pension.
11	IC-42751	A/BRIG	SK NANDAL	GUARDS	10.01.12	01.04.12 with seniority from 03.10.10 without effect on pay and pension.
12	IC-42752	A/BRIG	S YADAV	AAD	25.08.12	25.08.12 with seniority from 03.10.10 without effect on pay and pension.
13	IC-42753	A/BRIG	BC PONNAPPA	MAHAR	10.01.12	01.04.12 with seniority from 04.10.10 without effect on pay and pension.
14	IC-42755	A/BRIG	PK SAINI	MECH INF	01.12.12	01.12.12 with seniority from 04.10.10 without effect on pay and pension.
15	IC-42759	A/BRIG	SK LAMA	5 GR	10.01.12	01.04.12 with seniority from 04.10.10 without effect on pay and pension.
16	IC-42764	A/BRIG	PANKAJ CHOUHAN	ENGRS	10.02.12	01.04.12 with seniority from 04.10.10 without effect on pay and pension.
17	IC-42765	A/BRIG	JJ MATHEWS	MECH INF	01.12.12	01.12.12 with seniority from 05.10.10 without effect on pay and pension.
18	IC-42766	A/BRIG	RAJESH PURI	EME	16.01.12	01.04.12 with seniority from 05.10.10 without effect on pay and pension.
19	IC-42767	A/BRIG	ANIL HOODA	ARMD	10.01.12	01.04.12 with seniority from 05.10.10 without effect on pay and pension.
20	IC-42768	A/BRIG	A SALIM	RAJPUT	05.10.12	05.10.12 with seniority from 05.10.10 without effect on pay and pension.
21	IC-42771	A/BRIG	SANJAY SINGH, SM, VSM	PARA	10.01.12	01.04.12 with seniority from 06.10.10 without effect on pay and pension.
22	IC-42773	A/BRIG	SK SHARMA	JAK RIF	17.02.12	01.04.12 with seniority from 06.10.10 without effect on pay and pension.
23	IC-42774	A/BRIG	PK JAYSWAL, VSM	RAJ RIF	18.02.12	01.04.12 with seniority from 06.10.10 without effect on pay and pension.
24	IC-42775	A/BRIG	JAI RAM KUMAR	ENGRS	01.03.12	01.04.12 with seniority from 06.10.10 without effect on pay and pension.
25	IC-42777	A/BRIG	RR PATIL	ARTY(GC)	10.02.12	01.04.12 with seniority from 07.10.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
26	IC-42779	A/BRIG	Y KAPOOR	ARMD	04.03.12	01.04.12 with seniority from 07.10.10 without effect on pay and pension.
27	IC-42780	A/BRIG	AK SINGH, SM	GREN	18.02.12	01.04.12 with seniority from 07.10.10 without effect on pay and pension.
28	IC-42781	A/BRIG	UV TALUR	AAD	01.10.12	01.10.12 with seniority from 07.10.10 without effect on pay and pension.
29	IC-42782	A/BRIG	D OBHRAI	ARTY	10.02.12	23.04.12 with seniority from 08.10.10 without effect on pay and pension.
30	IC-42785	A/BRIG	BP JACOB	SIKH	18.02.12	23.04.12 with seniority from 08.10.10 without effect on pay and pension.
31	IC-42786	A/BRIG	SURINDER YADAV	ASC	05.11.10	23.04.12 with seniority from 08.10.10 without effect on pay and pension.
32	IC-42788	A/BRIG	JK GAUTAM	ARTY	10.02.12	28.04.12 with seniority from 08.10.10 without effect on pay and pension.
33	IC-42790	A/BRIG	H PANT, SM	MADRAS	18.02.12	28.04.12 with seniority from 09.10.10 without effect on pay and pension.
34	IC-42792	A/BRIG	AK SURI	AVN	19.10.12	19.10.12 with seniority from 09.10.10 without effect on pay and pension.
35	IC-42794	A/BRIG	MVS KUMAR	ASSAM	25.02.12	28.04.12 with seniority from 09.10.10 without effect on pay and pension.
36	IC-42795	A/BRIG	J BHOLA	SIGS	01.06.12	01.06.12 with seniority from 09.10.10 without effect on pay and pension.
37	IC-42796	A/BRIG	KC PANCHANATH AN	ENGRS	01.04.12	30.04.12 with seniority from 10.10.10 without effect on pay and pension.
38	IC-42797	A/BRIG	AS CHAHIL, SM	MARATH A LI	23.03.12	30.04.12 with seniority from 10.10.10 without effect on pay and pension.
39	IC-42802	A/BRIG	BC KHANDURI	ARTY(GC)	17.02.12	30.04.12 with seniority from 10.10.10 without effect on pay and pension.
40	IC-42804	A/BRIG	NS RAJPUROHIT	ASC	05.11.10	30.04.12 with seniority from 10.10.10 without effect on pay and pension.
41	IC-42805	A/BRIG	RATAN KUMAR	ARTY	17.02.12	30.04.12 with seniority from 11.10.10 without effect on pay and pension.
42	IC-42806	A/BRIG	SK JHA	DOGRA	23.03.12	30.04.12 with seniority from 11.10.10 without effect on pay and pension.
43	IC-42807	A/BRIG	JS RAJPUROHIT	JAK RIF	23.03.12	30.04.12 with seniority from 11.10.10 without effect on pay and pension.
44	IC-42811	A/BRIG	BS SHEKHAWAT	JAK LI	23.03.12	30.04.12 with seniority from 11.10.10 without effect on pay and pension.
45	IC-42812	A/BRIG	R SHARMA	ARTY	17.02.12	30.04.12 with seniority from 12.10.10 without effect on pay and pension.
46	IC-42813	A/BRIG	CV AJAY	1 GR	23.03.12	30.04.12 with seniority from 12.10.10 without effect on pay and pension.
47	IC-42818	A/BRIG	H KOHLI	SIKH	23.03.12	30.04.12 with seniority from 12.10.10 without effect on pay and pension.
48	IC-42825	A/BRIG	SK NARAIN, SM	JAT	23.03.12	30.04.12 with seniority from 12.10.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
49	IC-42831	A/BRIG	RUPINDER SINGH	ARTY	17.02.12	30.04.12 with seniority from 13.10.10 without effect on pay and pension.
50	IC-42833	A/BRIG	GAJINDER SINGH	GARH RIF	23.03.12	30.04.12 with seniority from 13.10.10 without effect on pay and pension.
51	IC-42838	A/BRIG	PR MURALI	ARTY	17.02.12	30.04.12 with seniority from 13.10.10 without effect on pay and pension.
52	IC-42843	A/BRIG	R JHALDIYAL, SM	RAJPUT	23.03.12	30.04.12 with seniority from 13.10.10 without effect on pay and pension.
53	IC-42845	A/BRIG	A KAURA, SM	JAT	30.03.12	30.04.12 with seniority from 14.10.10 without effect on pay and pension.
54	IC-42848	A/BRIG	RAVI	ARTY	17.02.12	30.04.12 with seniority from 14.10.10 without effect on pay and pension.
55	IC-42852	A/BRIG	ASHISH JINDAL	MECH INF	01.12.12	30.04.12 with seniority from 14.10.10 without effect on pay and pension.
56	IC-42853	A/BRIG	GAUTAM OBEROI	ARMD	04.03.12	30.04.12 with seniority from 14.10.10 without effect on pay and pension.
57	IC-42857	A/BRIG	GS KAHLON	PUNJAB	30.03.12	30.04.12 with seniority from 15.10.10 without effect on pay and pension.
58	IC-42862	A/BRIG	YS MOR, SM	MECH INF	01.12.12	01.12.12 with seniority from 15.10.10 without effect on pay and pension.
59	IC-42881	A/BRIG	SANJAY RIHANI	ENGRS	01.06.12	01.06.12 with seniority from 15.10.10 without effect on pay and pension.
60	IC-42885	A/BRIG	S THAKUR, YSM	PARA	30.03.12	30.04.12 with seniority from 15.10.10 without effect on pay and pension.
61	IC-42887	A/BRIG	PK CHAHAL	INT	15.07.12	15.07.12 with seniority from 16.10.10 without effect on pay and pension.
62	IC-42897	A/BRIG	HK POKHARIYAL	ENGRS	01.08.12	01.08.12 with seniority from 16.10.10 without effect on pay and pension.
63	IC-42906	A/BRIG	TS SANDHU	BIHAR	30.03.12	01.05.12 with seniority from 16.10.10 without effect on pay and pension.
64	IC-42915	A/BRIG	RV SINGH	ASC	05.11.10	01.05.12 with seniority from 16.10.10 without effect on pay and pension.
65	IC-42919	A/BRIG	MANOJ KUMAR	ARTY	17.02.12	01.05.12 with seniority from 17.10.10 without effect on pay and pension.
66	IC-42921	A/BRIG	R YADAV	INT	15.07.12	15.07.12 with seniority from 17.10.10 without effect on pay and pension.
67	IC-42926	A/BRIG	B KALITA	KUMAON	30.03.12	01.05.12 with seniority from 17.10.10 without effect on pay and pension.
68	IC-42958	A/BRIG	HM IYER	ARTY	17.02.12	01.05.12 with seniority from 17.10.10 without effect on pay and pension.
69	IC-42976	A/BRIG	PS JULKA	ARTY	17.02.12	01.05.12 with seniority from 18.10.10 without effect on pay and pension.
70	IC-42982	A/BRIG	PS CHANDOK	AOC	29.03.13	29.03.13 with seniority from 18.10.10 without effect on pay and pension.
71	IC-42992	A/BRIG	AK SHARMA	SIGS	01.06.12	01.06.12 with seniority from 18.10.10 without effect on pay and pension.
72	IC-43009	A/BRIG	A NARAYAN	AAD	25.12.12	25.12.12 with seniority from 18.10.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
73	IC-43021	A/BRIG	GS RAWAT, SM	DOGRA	30.03.12	14.05.12 with seniority from 19.10.10 without effect on pay and pension.
74	IC-43033	A/BRIG	GN RAGHURAM	ARTY	17.02.12	14.05.12 with seniority from 19.10.10 without effect on pay and pension.
75	IC-43073	A/BRIG	R RAINA	SIKH	30.03.12	14.05.12 with seniority from 19.10.10 without effect on pay and pension.
76	IC-43102	A/BRIG	DEEPINDER SINGH	AOC	29.03.13	29.03.13 with seniority from 19.10.10 without effect on pay and pension.
77	IC-43126	A/BRIG	PRADEEP SOFAT	SIKH	30.03.12	14.05.12 with seniority from 20.10.10 without effect on pay and pension.
78	IC-43127	A/BRIG	N KUMAR	ASC	05.11.10	14.05.12 with seniority from 20.10.10 without effect on pay and pension.
79	IC-43129	A/BRIG	M BHATNAGAR	GARH RIF	30.03.12	14.05.12 with seniority from 20.10.10 without effect on pay and pension.
80	IC-43149	A/BRIG	K VENKATRAMAN	AOC	01.04.13	01.04.13 with seniority from 20.10.10 without effect on pay and pension.
81	IC-43210	A/BRIG	BINOD KUMAR	AEC	29.04.13	29.04.13 with seniority from 21.10.10 without effect on pay and pension.
82	IC-42902	A/BRIG	DEVINDER SINGH	ARMD	01.05.12	01.06.12 with seniority from 21.10.10 without effect on pay and pension.
83	IC-44856	A/BRIG	VIKRAM JOSHI	ENGRS	01.08.12	01.08.12 with seniority from 21.10.10 without effect on pay and pension.
84	IC-44862	A/BRIG	OP YADAV, SM	EME	10.01.12	05.06.12 with seniority from 21.10.10 without effect on pay and pension.
85	IC-44869	A/BRIG	RAJEEV KUMAR SINGH	EME	13.01.12	15.06.12 with seniority from 22.10.10 without effect on pay and pension.
86	IC-44870	A/BRIG	DM GUPTA	ENGRS(G C)	01.08.12	01.08.12 with seniority from 22.10.10 without effect on pay and pension.
87	IC-44885	A/BRIG	RAJESH JAYASWAL	EME	13.01.12	27.06.12 with seniority from 22.10.10 without effect on pay and pension.
88	IC-44900	A/BRIG	GURGOPAL SINGH	ENGRS	01.08.12	01.08.12 with seniority from 22.10.10 without effect on pay and pension.
89	IC-44902	A/BRIG	SANJAY SHARMA	EME	01.04.12	29.06.12 with seniority from 23.10.10 without effect on pay and pension.
90	IC-44919	A/BRIG	AV RAMESH	EME	01.06.12	01.07.12 with seniority from 23.10.10 without effect on pay and pension.
91	IC-44921	A/BRIG	SL JOSHI	EME	01.07.12	01.07.12 with seniority from 23.10.10 without effect on pay and pension.
92	IC-44920	A/BRIG	HK RATH	ENGRS	01.09.12	01.09.12 with seniority from 23.10.10 without effect on pay and pension.
93	IC-45435	A/BRIG	RAM NIWAS, VSM	RAJPUT	30.03.12	01.07.12 with seniority from 24.10.10 without effect on pay and pension.
94	IC-45437	A/BRIG	SS RAGHAV	KUMAON	30.03.12	01.07.12 with seniority from 24.10.10 without effect on pay and pension.
95	IC-45439	A/BRIG	A BHATTACHARYYA	ARMD	06.07.12	06.07.12 with seniority from 24.10.10 without effect on pay and pension.
96	IC-45446	A/BRIG	JP TIWARI	AOC	01.04.13	01.04.13 with seniority from 24.10.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
97	IC-43216	A/BRIG	BP SINGH	EME	01.07.12	02.07.12 with seniority from 25.10.10 without effect on pay and pension.
98	IC-43218	A/BRIG	PS MINHAS	ARMD	06.07.12	09.07.12 with seniority from 25.10.10 without effect on pay and pension.
99	IC-43219	A/BRIG	ALOK KACKER	9 GR	30.03.12	09.07.12 with seniority from 25.10.10 without effect on pay and pension.
100	IC-43222	A/BRIG	BS RAWAT	EME	01.08.12	01.08.12 with seniority from 25.10.10 without effect on pay and pension.
101	IC-43223	A/BRIG	RK JHA	ENGRS	01.09.12	01.09.12 with seniority from 26.10.10 without effect on pay and pension.
102	IC-43225	A/BRIG	GS SHAN	AOC	01.05.13	01.05.13 with seniority from 26.10.10 without effect on pay and pension.
103	IC-43228	A/BRIG	M RAJENDRAN	EME	24.12.12	24.12.12 with seniority from 26.10.10 without effect on pay and pension.
104	IC-43231	A/BRIG	SS JOHAL	AOC	01.05.13	01.05.13 with seniority from 26.10.10 without effect on pay and pension.
105	IC-43232	A/BRIG	MOHIT NAUTIYAL	ENGRS	01.10.12	01.10.12 with seniority from 27.10.10 without effect on pay and pension.
106	IC-43235	A/BRIG	MD CHACKO	MLI	27.04.12	01.08.12 with seniority from 27.10.10 without effect on pay and pension.
107	IC-43236	A/BRIG	SANJEEV KHATRI	8 GR	27.04.12	01.08.12 with seniority from 27.10.10 without effect on pay and pension.
108	IC-43238	A/BRIG	SANJAY RAWAL	SIGS	01.06.12	01.08.12 with seniority from 27.10.10 without effect on pay and pension.
109	IC-43239	A/BRIG	HARINDER SINGH	ARTY	17.02.12	01.08.12 with seniority from 28.10.10 without effect on pay and pension.
110	IC-43244	A/BRIG	MS JODHA	ASC	01.08.11	01.08.12 with seniority from 28.10.10 without effect on pay and pension.
111	IC-43249	A/BRIG	MK SAGUCH	4 GR	27.04.12	21.08.12 with seniority from 29.10.10 without effect on pay and pension.
112	IC-43252	A/BRIG	KH GAWAS	SIGS	01.11.12	01.11.12 with seniority from 29.10.10 without effect on pay and pension.
113	IC-43254	A/BRIG	SS KAHLON	ENGRS	01.10.12	01.10.12 with seniority from 29.10.10 without effect on pay and pension.
114	IC-43262	A/BRIG	A ARUN, SM	GREN	27.04.12	01.09.12 with seniority from 30.10.10 without effect on pay and pension.
115	IC-43272	A/BRIG	RV SADHOTRA	ASC	01.08.11	01.10.12 with seniority from 30.10.10 without effect on pay and pension.
116	IC-43273	A/BRIG	A SAMANTA	JAK LI	08.06.12	01.10.12 with seniority from 31.10.10 without effect on pay and pension.
117	IC-43275	A/BRIG	MS TOMAR	ARMD	06.07.12	01.10.12 with seniority from 31.10.10 without effect on pay and pension.
118	IC-43280	A/BRIG	RL PATRO	MADRAS	05.10.12	05.10.12 with seniority from 31.10.10 without effect on pay and pension.
119	IC-43283	A/BRIG	J DAHIYA	AAD	29.03.13	29.03.13 with seniority from 31.10.10 without effect on pay and pension.
120	IC-43284	A/BRIG	AK GUPTA	ARTY	04.05.12	01.10.12 with seniority from 01.11.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
121	IC-43285	A/BRIG	DP PANDEY, VSM	SIKH LI	08.06.12	01.10.12 with seniority from 01.11.10 without effect on pay and pension.
122	IC-43294	A/BRIG	AK PANDEY, VSM	JAT	22.06.12	01.10.12 with seniority from 01.11.10 without effect on pay and pension.
123	IC-43295	A/BRIG	RAVIN KHOSLA	5 GR	22.06.12	01.10.12 with seniority from 01.11.10 without effect on pay and pension.
124	IC-43296	A/BRIG	VK MISRA	JAK RIF	22.06.12	01.10.12 with seniority from 02.11.10 without effect on pay and pension.
125	IC-43297	A/BRIG	JS SIDANA	EME	24.12.12	24.12.12 with seniority from 02.11.10 without effect on pay and pension.
126	IC-43298	A/BRIG	SS BIRDIE	SIGS	01.11.12	01.11.12 with seniority from 02.11.10 without effect on pay and pension.
127	IC-43307	A/BRIG	N RAJKUMAR, SM	BIHAR	22.06.12	05.10.12 with seniority from 02.11.10 without effect on pay and pension.
128	IC-43320	A/BRIG	R BHATIA	JAT	22.06.12	15.10.12 with seniority from 03.11.10 without effect on pay and pension.
129	IC-43326	A/BRIG	M MEHROTRA	ENGRS	01.10.12	15.10.12 with seniority from 03.11.10 without effect on pay and pension.
130	IC-43330	A/BRIG	JS SANDHU	RAJ PUT	22.06.12	19.10.12 with seniority from 03.11.10 without effect on pay and pension.
131	IC-43333	A/BRIG	K NARAYANAN	MLI	22.06.12	19.10.12 with seniority from 03.11.10 without effect on pay and pension.
132	IC-43343	A/BRIG	RAJEEVA KUMAR, SM	SIKH LI	27.07.12	26.10.12 with seniority from 04.11.10 without effect on pay and pension.
133	IC-43355	A/BRIG	GURDYAL SINGH	ENGRS	01.10.12	01.11.12 with seniority from 04.11.10 without effect on pay and pension.
134	IC-43364	A/BRIG	SS KHARA	INT	15.07.12	01.11.12 with seniority from 04.11.10 without effect on pay and pension.
135	IC-43365	A/BRIG	J HOTA	SIGS	01.11.12	01.11.12 with seniority from 05.11.10 without effect on pay and pension.
136	IC-43370	A/BRIG	JP MATHEW, VSM	PUNJAB	27.07.12	01.11.12 with seniority from 05.11.10 without effect on pay and pension.
137	IC-43371	A/BRIG	R NANDA	PUNJAB	27.07.12	01.11.12 with seniority from 05.11.10 without effect on pay and pension.
138	IC-43389	A/BRIG	PK SINGH	GARH RIF	27.07.12	01.11.12 with seniority from 05.11.10 without effect on pay and pension.
139	IC-43393	A/BRIG	RA MANDHAR	AOC	01.06.13	01.06.13 with seniority from 06.11.10 without effect on pay and pension.
140	IC-43395	A/BRIG	MK BINDAL	AAD	25.12.12	25.12.12 with seniority from 06.11.10 without effect on pay and pension.
141	IC-43399	A/BRIG	AJIT SINGH	GREN	27.07.12	09.11.12 with seniority from 06.11.10 without effect on pay and pension.
142	IC-43407	A/BRIG	S PAVAMANI	ARTY	04.05.12	19.11.12 with seniority from 06.11.10 without effect on pay and pension.
143	IC-43421	A/BRIG	KS RAO	DOGRA	05.10.12	19.11.12 with seniority from 07.11.10 without effect on pay and pension.
144	IC-43423	A/BRIG	S TIWARI	ARTY	04.05.12	30.11.12 with seniority from 07.11.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
145	IC-43426	A/BRIG	ATESH CHAHAR	KUMAON	27.07.12	01.12.12 with seniority from 07.11.10 without effect on pay and pension.
146	IC-43428	A/BRIG	VS YADAV	RAJPUT	27.07.12	01.12.12 with seniority from 07.11.10 without effect on pay and pension.
147	IC-43429	A/BRIG	BC SHARMA	SIGS	01.11.12	04.12.12 with seniority from 08.11.10 without effect on pay and pension.
148	IC-43440	A/BRIG	R LOWE	ARTY	29.06.12	06.12.12 with seniority from 08.11.10 without effect on pay and pension.
149	IC-43443	A/BRIG	SS SANDHU, SM	ARTY	29.06.12	07.12.12 with seniority from 08.11.10 without effect on pay and pension.
150	IC-43444	A/BRIG	PGK MENON	SIKH	27.07.12	07.12.12 with seniority from 08.11.10 without effect on pay and pension.
151	IC-43445	A/BRIG	A KHANDPUR	ARTY	29.06.12	08.12.12 with seniority from 09.11.10 without effect on pay and pension.
152	IC-43454	A/BRIG	D MUKERJEE, SM	MARATHA LI	27.07.12	10.12.12 with seniority from 09.11.10 without effect on pay and pension.
153	IC-43471	A/BRIG	SS SIDHU	BIHAR	27.07.12	10.12.12 with seniority from 09.11.10 without effect on pay and pension.
154	IC-43472	A/BRIG	PC NAIR	SIKH	27.07.12	11.12.12 with seniority from 09.11.10 without effect on pay and pension.
155	IC-43479	A/BRIG	VIJAY SAHGAL	ARTY(GC)	29.06.12	14.12.12 with seniority from 10.11.10 without effect on pay and pension.
156	IC-43529	A/BRIG	P KAUSHIK	ARTY	29.06.12	16.12.12 with seniority from 10.11.10 without effect on pay and pension.
157	IC-43306	A/BRIG	JAGDEEP SINGH	ARTY	29.06.12	27.12.12 with seniority from 11.11.10 without effect on pay and pension.
158	IC-47482	A/BRIG	HS KHLON	ENGRS	01.12.12	28.12.12 with seniority from 11.11.10 without effect on pay and pension.
159	IC-47483	A/BRIG	JS ISHAR	ENGRS	01.12.12	28.12.12 with seniority from 11.11.10 without effect on pay and pension.
160	IC-47523	A/BRIG	PK GOYAL	ENGRS	01.12.12	28.12.12 with seniority from 11.11.10 without effect on pay and pension.
161	IC-47539	A/BRIG	PARVEEN KUMAR	EME	24.12.12	28.12.12 with seniority from 12.11.10 without effect on pay and pension.
162	IC-47515	A/BRIG	PRABIR DEB	ENGRS	01.12.12	31.12.12 with seniority from 12.11.10 without effect on pay and pension.
163	IC-47532	A/BRIG	GK SWAMY	ENGRS	01.12.12	31.12.12 with seniority from 12.11.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS BRIG
1.	IC-44434	A/BRIG	SK SHARMA, SM	ENGRS	01.04.12 with seniority from 14.04.10 without effect on pay and pension

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS BRIG
1.	IC-42538	A/BRIG	A SOLANKEY	11 GR	19.02.12 with seniority from 11.04.10 without effect on pay and pension.

SL NO	IC NO	RANK	NAME	ARM	DATE OF ACTING	DATE OF SUBS RANK
1	SL-03159	A/BRIG	JS JASWAL	SL(RO)	01.06.11	01.06.11

PK PATTNAYAK
Dir / MS(X)

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 217, dated 9th September 2014—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

LT COL (SELECT) TO COL

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Col Nupur Chanda	NR-17895 A	15 May 2014
Col Valsa E Mathew	NR-17868 W	15 May 2014

LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
LT COL (S) BIJENDRI DEVI	NR-18433 A	21/02/2014

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

(ARMY BRANCH)

No. 218, dated 10th September 2014—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
CAPT TO BE MAJOR

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Prom to the rank of Maj
(a)	DS-12385P	Capt	Karam Jeet Singh Jaswal	03 Sep 12
(b)	DS-12409N	-do-	Soumyajit Kumar Santra	14 Sep 12
(c)	DS-12353M	-do-	Chandan Misra	01 Jul 13
(d)	DS-12327L	-do-	Varun G	09 Jul 13
(e)	DS-12356A	-do-	Navneet	17 Aug 13
(f)	DS-12354P	-do-	S Muni Venkatesh	14 Jan 14
(f)	DS-12355X	-do-	Shashank Sharma	07 Feb 14
(h)	DS-12357H	-do-	Anurag Pal Singh	19 Feb 14
(j)	DS-12359N	-do-	Nanavati Goutam Dilip	24 Feb 14

(k)	DS-12361L	-do-	Sunny Banga	26 Feb 14
(l)	DS-12364Y	-do-	Rakesh Kumar Sharma	27 Feb 14
(m)	DS-12365F	-do-	Ashwina S Banari	28 Feb 14
(n)	DS-12366K	-do-	Bopanna BB	28 Feb 14
(o)	DS-12367M	-do-	Pamil Banotra	02 Mar 14

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

(ARMY BRANCH)

No. 219, dated 11th September 2014—The President is pleased to make the following promotions.

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (N ASST)

SUBEDAR	SUSHANT KUMAR BEHRA	JC-695419L	03 JAN 2013 *
SUBEDAR	SATPAL SINGH	JC-695603W	01 JAN 2013
(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	PINTU KUMAR BISWAS	JC-695565L	01 FEB 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	GORAKH NATH YADAV	JC-695494P	01 MAR 2013
SUBEDAR	MANOJ KUMAR SINGH	JC-695564H	01 MAR 2013
SUBEDAR	MAHESH KUMAR	JC-695498L	01 MAR 2013
SUBEDAR	SUKHBIR SINGH	JC-695950P	01 MAR 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	MADHUSUDHANAN S	JC-695571Y	01 APR 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	MANWAR SINGH	JC-695536W	01 MAY 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 May 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	SWAPAN KUMAR BISWAS	JC-695912Y	29 JUN 2013 **
(** Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	VIRENDER KUMAR	JC-695463P	01 SEP 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	SATBIR SINGH	JC-695747Y	01 OCT 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allces)			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (BLOOD TRANSFUSION ASST)			
NAIB SUBEDAR	BHUP SINGH	JC-695435H	12092009*
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR CK	JC-695616N	16092009*
* Granted Seniority in the rank of Subedar wef 14082009 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MANJIT KUMAR SINGH	JC-695618Y	31012011**
** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SOHAN LAL	JC-695698F	01032011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032011 without effect on Pay and Allces			

NAIB SUBEDAR	RAM PRAKASH PACHAORI	JC-695882M	14072011***
*** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	HEM RAJ SINGH	JC-695959K	16092011****
**** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 29072011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAMU TIWARI	JC-696018H	26112011\$
\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	JAWANJAL SANJAY BAPURAO	JC-697161F	01072012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01072012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURENDRA PAL	JC-697123L	01082012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01082012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	UMESH KUMAR SINGH	JC-697124N	01012013
NAIB SUBEDAR	RAJENDER SINGH	JC-697125W	01012013
NAIB SUBEDAR	PRABIR BANERJEE	JC-697126Y	01012013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SHANTI DE	JC-697162K	01022013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01022013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SUBEDAR PRASAD YADAV	JC-697889P	01032013
NAIB SUBEDAR	PRABHAKAR SINGH JADAUN	JC-697962H	01032013
NAIB SUBEDAR	RAJESH PRASAD	JC-698124A	01032013
NAIB SUBEDAR	BRAHMADEO SINGH	JC-698304H	01032013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	HITESH DAS	JC-698403L	01042013\$\$
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUMAR S	JC-698404N	01042013\$\$
NAIB SUBEDAR	BIRENDRA KUMAR SHARMA	JC-698376M	29072013\$\$
NAIB SUBEDAR	DHANPAT SINGH	JC-698424F	01042013\$\$
\$\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	ANANDI KUMAR DEBEY	JC-698473K	01052013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01052013 without effect on Pay and Allces			

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (N ASST)

NAIB SUBEDAR	OM PRAKASH	JC-697734A	04 FEB 2013 *
(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BHUPENDER SINGH	JC-697737N	22 FEB 2013 **
(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 14 Feb 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAJ SINGH	JC-697833H	01 MAR 2013
NAIB SUBEDAR	JITENDER KUMAR	JC-697834L	01 MAR 2013
NAIB SUBEDAR	ANIL SHIRSAT	JC-697835N	01 MAR 2013
NAIB SUBEDAR	SARKATE DEORAO SUKHADEO	JC-697893X	01 MAR 2013
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR	JC-697836W	01 MAR 2013
NAIB SUBEDAR	BANKE LAL YADAVA	JC-697944A	01 MAR 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SURENDER KUMAR SINGH	JC-697949Y	01 APR 2013

NAIB SUBEDAR	DEV PROSAD HORE	JC-697950N	01 APR 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA GURJWAR	JC-698072P	01 MAY 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	DESAI RAMESH RAJA RAM	JC-698138A	21 JUN 2013 ***
(***) Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 JUN 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	PUSHPENDRA PRATAP SINGH	JC-698175N	02 SEP 2013 #
NAIB SUBEDAR	BRIJ BIHARI SINGH	JC-698176W	02 SEP 2013 #
(# Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 SEP 2013 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BHARAT SINGH	JC-698210L	01 OCT 2013
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allces)			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (HEALTH ASST)			
NAIB SUBEDAR	KRISHNA GOPAL BISWAS	JC-693254Y	18052010*
* Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102009 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR	JC-693336F	27072010**
NAIB SUBEDAR	RAMESH SINGH	JC-693263A	20082010**
** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062010 without effect on Pay and Allces.			
NAIB SUBEDAR	ROSHAN LAL	JC-693380L	01072010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01072010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SHANKAR DATT	JC-693768W	01102011***
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHANDER SRIVASTAVA	JC-693381N	01102010***
NAIB SUBEDAR	DHARAM CHAND	JC-693382W	01102010***
*** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	BISWAJIT GHOSH	JC-693406P	01112010
NAIB SUBEDAR	VIRENDER NARAIN	JC-693407X	01112010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	VILAS YALLURKAR	JC-693500Y	13012011****
**** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAKESH KUMAR SOOD	JC-693573L	13062011\$
\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR DASH	JC-693766L	29082011\$\$
NAIB SUBEDAR	SHINDE NAMDEO MAHADEO	JC-693521P	01092011\$\$
NAIB SUBEDAR	BADRI PRASAD TIWARI	JC-693649A	02092011\$\$
NAIB SUBEDAR	RAJ KANWAR	JC693650P	08102011\$\$
\$\$ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 29072011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MANI RAM	JC-693852W	18112011\$\$\$
NAIB SUBEDAR	CHAWAND SINGH	JC-693853Y	17112011\$\$\$
\$\$\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	KRISHNAN KUTTY D	JC-693945L	05012012#
NAIB SUBEDAR	HARI KUMAR R	JC-694092L	01012012#
NAIB SUBEDAR	VED PRAKASH	JC-694158W	03022012#
#Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012012 without effect on Pay and Allces			

NAIB SUBEDAR	SHANKAR DATT	JC-694183P	01022012
NAIB SUBEDAR	KRISHNA KUMAR MISHRA	JC-694228K	01022012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01022012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	POONA RAM MEGHWAL	JC-694369Y	29032012##
## Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	BALWAN SINGH	JC-695081L	01042012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MAHENDER SINGH	JC-695124P	16072012###
### Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01072012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAM PRAKASH PATEL	JC-695135F	20102012####
NAIB SUBEDAR	S KANDARAJ	JC-695437N	01092012
#### Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01092012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	KAUSHAL KISHORE SINGH	JC-695436L	01102012
NAIB SUBEDAR	KARAD BALUMAHADU	JC-695391W	01102012
NAIB SUBEDAR	ANANTA BORSIAKIA	JC-695392Y	19102012^
^ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PATIL PANDURANG GOVIND	JC-695807H	09012013^^
^^ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHANDER	JC-695830W	01012013
NAIB SUBEDAR	SAJJAN KUMAR	JC-695615L	01012013
NAIB SUBEDAR	MOHAN NATH	JC-696086W	01012013
NAIB SUBEDAR	RAM KISHAN	JC-696248W	01012013
NAIB SUBEDAR	BALAM SINGH PARIHAR	JC-696249Y	01012013
NAIB SUBEDAR	LOMASH KUMAR	JC-697132M	01012013
NAIB SUBEDAR	RAJNATH SINGH YADAWA	JC-696250N	09012013^^^
^^^ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SADARI PRASAD CHAUHAN	JC-696227A	01032013
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC-696615X	01032013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032013 without effect on Pay and Allces			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (DENTAL HYGIENIST)			
NAIB SUBEDAR	GUDAL SINGH	JC-696225P	01042010*
NAIB SUBEDAR	SHAJI KP	JC-696343H	06042010*
NAIB SUBEDAR	RAM SHABD CHAUHAN	JC-696394W	05042010*
NAIB SUBEDAR	BRIJESH KUMAR RAI	JC-696395Y	12042010*
NAIB SUBEDAR	PREM PRAKASH SINGH	JC-696396F	12042010*
NAIB SUBEDAR	BABU RAM BADLIA	JC-696397K	09042010*
* Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PURUSHOTTAM TIWARY	JC-696826A	01112010**
NAIB SUBEDAR	PASHUPATINATH	JC-696398M	19062010**
NAIB SUBEDAR	JAI JINDER SINGH	JC-696400Y	19062010**
NAIB SUBEDAR	DHIREN KUMAR SINGHA	JC-696401F	26062010**
** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062010 without effect on Pay and Allces			

NAIB SUBEDAR	GANDAVALLA MANOJ KUMAR	JC-696600P	01112010
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR SINGH	JC-696700A	01112010
NAIB SUBEDAR	AMBIKA PRASAD DUBEY	JC-696627M	01112010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	VINAY KUMAR TOMER	JC-696628P	01122010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MONOTOSH LODH	JC-696629X	01052011***
NAIB SUBEDAR	SHIV BALAK RAI	JC-696701H	16052011***
*** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01052011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURYAJATAN SHARMA	JC-696854M	16062011****
NAIB SUBEDAR	VIRNARAYAN SINGH	JC-697096M	01072011****
NAIB SUBEDAR	PRAKASH KUMAR PB	JC-697213M	15062011****
NAIB SUBEDAR	RAMANAND MAHTO	JC-697338K	04072011****
**** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	APARESH CHANDRA SAHA	JC-697214P	01082011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01082011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	KRISHNA PAL SINGH	JC-697339M	07102011\$
NAIB SUBEDAR	RAKESH KUMAR SINGH	JC-697453K	10102011\$
NAIB SUBEDAR	NIRANJAN KUMAR SINGH	JC-697416N	06102011\$
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR SINGH	JC-697417Y	05102011\$
NAIB SUBEDAR	JAYAPRAKASH K	JC-697522P	07102011\$
NAIB SUBEDAR	LALIT KUMAR SINGH	JC-697476L	05102011\$
NAIB SUBEDAR	VIJENDRA SINGH MUNDAWARIYA	JC-697525H	07102011\$
NAIB SUBEDAR	MAHESH CHANDRA	JC-697496Y	06102011\$
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR SINGH	JC-697738W	07102011\$
\$ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 15092011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	GUPTESHWAR NATH CHATURBEDI	JC-698058H	01102012\$\$
NAIB SUBEDAR	DHANBEER SINGH	JC-697508H	01112011\$\$
\$\$ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAKESH SINGH BHADORIA	JC-697556H	01122011
NAIB SUBEDAR	LAKHI BORAH	JC-697585X	01122011
NAIB SUBEDAR	ANAND SINGH BISHT	JC-697740N	01122011
NAIB SUBEDAR	SUNIL PHUKON	JC-697586A	01122011
NAIB SUBEDAR	UDAY RAJ SINGH	JC-697756Y	01122011
NAIB SUBEDAR	K THIRUGNANA SAM BANDAM	JC-697757F	01122011
NAIB SUBEDAR	MOHAMED ISMAIL A	JC-697803L	01122011
NAIB SUBEDAR	S SHEN PAHA MURTHI	JC-697804N	01122011
NAIB SUBEDAR	UMESH PATALE	JC-697844P	01122011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR SINGH	JC-698059L	01102012\$\$\$
NAIB SUBEDAR	DABBAL SINGH BHANDARI	JC-698180Y	01102012\$\$\$
NAIB SUBEDAR	SUBRATA DEB	JC-698116F	20112012\$\$\$

NAIB SUBEDAR	R KISHOR KUMAR REDDY	JC-698551W	01112013\$\$\$
NAIB SUBEDAR	DEENADAYALAN M	JC-698827F	01102013\$\$\$
\$\$\$ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	NARENDER SINGH	JC-698117K	01122012
NAIB SUBEDAR	KOSHAL KUMAR	JC-698147F	01122012
NAIB SUBEDAR	SHIBU JOSEPH	JC-698227Y	01122012
NAIB SUBEDAR	BRAJ MOHAN PANDEY	JC-698279P	01122012
NAIB SUBEDAR	V LAKSHMANA MURTY	JC-698280K	01122012
NAIB SUBEDAR	MITHILESH KUMAR SINGH	JC-698228F	01122012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	HARISH CHANDRA PATEL	JC-698281M	13022013^
^ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 20012013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAMESH S	JC-698282P	06052013^^
^^ Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01052013 without effect on Pay and Allces			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (DENTAL TECHNICIAN)			
NAIB SUBEDAR	BIRADE MADHUKAR ISHWAR	JC-694102K	01112009*
NAIB SUBEDAR	SUDHIRA KUMAR PARIDA	JC-694292F	11112009*
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR PATIKKAL	JC-694295P	11112009*
* Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112009 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH	JC-694665K	01052010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01052010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC-694558H	02082010**
NAIB SUBEDAR	RAVI KARAN	JC-694667P	21062010**
NAIB SUBEDAR	ABHIMANYU SINGH	JC-694908K	03082010**
** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	N RAMA CHANDRAN	JC-695059A	05102011***
NAIB SUBEDAR	NISARUDEEN M	JC-695990W	25102011***
NAIB SUBEDAR	HARI RAM	JC-695095L	07102011***
NAIB SUBEDAR	VENUGOPAL S	JC-695450X	03102011***
NAIB SUBEDAR	JAGGU MANTRI MOHANA RAO	JC-695660X	12102011***
NAIB SUBEDAR	KUSUMBAR SWARGEARY	JC-695551L	18102011***
NAIB SUBEDAR	NIYAZ AHEMAD	JC-695662H	05102011***
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA PD SINGH	JC-696603H	03102011***
*** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 15092011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	LABH SINGH	JC-695883P	01102011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUMAR SINGH	JC-695928K	01112011
NAIB SUBEDAR	KABEER AHAMAD BAIG N	JC-696093M	01112011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PRIYOBRATA SINGHA	JC-696708M	28022012****
**** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MANGAL RAM	JC-696204Y	01042012\$

NAIB SUBEDAR	DORUGADE RAMCHANDRA BABU	JC-696100X	01042012\$
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR	JC-696386X	02042012\$
\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042012 without effect on Pay and Allces			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (PSYCHIATRIC NURSING ASST)			
NAIB SUBEDAR	GIRIJESH KUMAR MISHRA	JC-695480P	05032010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SANJAI KUMAR SINGH	JC-696017A	01042010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	N NEERATHILIGAM	JC-696104N	01092010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01092010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	ASHOKA KUMAR SAHOO	JC-696207M	01032011
NAIB SUBEDAR	MIRZA NAVSHAD BEG	JC-696605N	01032011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01032011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PREM BALLABH	JC-696728A	01122011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAM MURTI	JC-697023A	01072012*
NAIB SUBEDAR	UMRAO SINGH	JC-697382N	02072012*
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01072012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAJVIR SINGH	JC-697131K	01092012**
NAIB SUBEDAR	SAJEEVAN NAIR C	JC-697157Y	29092012**
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR JHA	JC-697445L	28092012**
NAIB SUBEDAR	RAJA RAM	JC-697491A	28092012**
NAIB SUBEDAR	BARUN KUMAR SINGH	JC-697523X	29092012**
NAIB SUBEDAR	DINESH SINGH	JC-697710W	29092012**
NAIB SUBEDAR	MAHENDRAPAL SINGH GUSAIN	JC-697711Y	25092012**
**Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01092012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SURINDER KUMAR	JC-697971K	01102012
NAIB SUBEDAR	SUBHASH KUMAR SHARMA	JC-697972M	01102012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	M NABA KUMAR SINGHA	JC-698323N	01112012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PATIL PRABHAKAR SHANKAR	JC-698324W	01012013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SHAMBHU MANDAL	JC-698472F	04072013***
NAIB SUBEDAR	PRADIP KUMAR	JC-698512X	10072013***
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012013 without effect on Pay and Allces			
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (PHYSIOTHERAPIST)			
NAIB SUBEDAR	MEGH RAJ SINGH	JC-695428M	20082010*
* Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01072010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	AMIR SINGH	JC-695639P	01112010
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR MAURYA	JC-695922H	01112010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112010 without effect on Pay and Allces			

NAIB SUBEDAR	REGUNATH PR	JC-696085N	01122010
NAIB SUBEDAR	NATHUNI RAM	JC-696095X	01122010
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHAND	JC-696226X	01122010
NAIB SUBEDAR	GOPALA KRISHNAN K	JC-696391H	01122010
NAIB SUBEDAR	SATNAM SINGH	JC-696410H	01122010
NAIB SUBEDAR	R SEKAR	JC-696493Y	01122010
NAIB SUBEDAR	AJIT KUMAR VERMA	JC-696610Y	01122010
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122010 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MANGI LAL	JC-696617H	01012011
NAIB SUBEDAR	GOPINATHAN A	JC-696698N	01012011
NAIB SUBEDAR	JAI PARKASH	JC-696618L	01012011
NAIB SUBEDAR	BALWAN SINGH	JC-696817Y	01012011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	PRAKASH SUBBA	JC-696720N	01022011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01022011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR SINGH	JC-696721W	01032011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	IYYAPPAN KUTTY K	JC-696722Y	01122011
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122011 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC-696834Y	25062012**
** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01062012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	MOHANA KRISHNAN K	JC-697128K	27092012***
*** Granted Seniority in the rank of Subedar wef 26072012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	SUKBIR SUBBA	JC-697387M	23082012\$
NAIB SUBEDAR	INGALE DHANAJI NIVARUTTI	JC-697129M	24082012\$
NAIB SUBEDAR	SAUGATA CHAKRABORTY	JC-697130F	25082012\$
NAIB SUBEDAR	V M R KARTHIKEYAN	JC-697322Y	24082012\$
\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 26072012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	YESURAJA THURAI P	JC-697368F	04102012\$\$
NAIB SUBEDAR	D JANAR THANAN	JC-697574L	04102012\$\$
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR THAKUR	JC-697758K	01102012\$\$
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUMAR SAHOO	JC-697913A	03102012\$\$
NAIB SUBEDAR	BABUL KONWAR	JC-697874M	01102012\$\$
\$\$Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01102012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	GOVINDAN KUTTY CM	JC-697846A	01112012
NAIB SUBEDAR	SATBIR	JC-697847H	01112012
NAIB SUBEDAR	PREM SINGH KATHAYAT	JC-697863A	01112012
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01112012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	DUNNA KRISHNA RAO	JC-697875P	01122012#
NAIB SUBEDAR	RAMASHANKAR CHOUDHARY	JC-697848L	20122012#
#Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01122012 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	VINOD CHANDRA BHATT	JC-697866N	01012013

NAIB SUBEDAR	SASE BALU RANGANATH	JC-697855F	01012013
NAIB SUBEDAR	JAMAL AKHTER	JC-697877A	01012013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01012013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	VIVEK KUMAR	JC-697878H	01022013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01022013 without effect on Pay and Allces			
NAIB SUBEDAR	OM PRAKASH	JC-697879L	01042013
Granted Seniority in the rank of Subedar wef 01042013 without effect on Pay and Allces			

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (AMB ASST)

HAVILDAR BHIM SINGH 13972343H NOW JC-699210X 04 JAN 2013*
HAVILDAR BIPIN KUMAR 13972306P NOW JC-698843Y 09 NOV2012*

(*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR SUNIL NARAYAN SINGH 13972724K NOW JC-698831K 03 NOV 2012**

(**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR ARJUN PANDIT 13973097P NOW JC-698836H 01 DEC 2012
HAVILDAR SEDEPPA ANGADI 13973330X NOW JC-699159H 20 DEC 2012#

(#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR PRAKASH CHANDRA PRABHAKARA 13973640H NOW JC-699109X 01 JAN 2013
HAVILDAR SURYA PRASAD SINGH 13973710W NOW JC-699181N 01 JAN 2013
HAVILDAR SARAT KUMAR SAMAL 13972531K NOW JC-699278Y 01 FEB 2013##

(##Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR PAT RAM 13973797H NOW JC-699182W 01 FEB 2013
HAVILDAR RAJENDRA SINGH YADAV 13973820L NOW JC-699225A 01 FEB 2013
HAVILDAR TARUN GHOSH 13973914H NOW JC-699183Y 13 FEB 2013\$
HAVILDAR BHARAT KUMAR VISHWAKARMA 13974137X NOW JC-699213L 01 FEB 2013
HAVILDAR YADAV SURENDRA SINGH JAI NARAYAN 13974141A NOW JC-699184F 05 FEB 2013\$
HAVILDAR SHAM LAL 13974174L NOW JC-699214N 01 FEB 2013

(\$Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR JOGENDRA SINGH BHAKUNI 13974190H NOW JC-699226H 01 MAR 2013
HAVILDAR VADLAMUDI CHINAVEERIAH 13974285H NOW JC-699227L 01 MAR 2013
HAVILDAR JYOTI SHANKAR YADAV 13974347X NOW JC-699228N 01 MAR 2013
HAVILDAR PRAHALAD SHARMA 13974344K NOW JC-699229W 01 MAR 2013
HAVILDAR LALAN SAH 13974364X NOW JC-699230L 01 MAR 2013
HAVILDAR BHAL CHANDRA CHATURVEDI 13974370L NOW JC-699231N 01 MAR 2013
HAVILDAR RANA KAR 13974368N NOW JC-699232W 01 MAR 2013
HAVILDAR SANJEEV KUMAR 13974419W NOW JC-699233Y 01 MAR 2013
HAVILDAR SURESH SINGH 13974418N NOW JC-699234F 01 MAR 2013
HAVILDAR AJAY SINGH 13974483N NOW JC-699235K 01MAR 2013
HAVILDAR KRISHNAN UNNI K 13974761W NOW JC-699273A 01 MAR 2013

HAVILDAR	HERA PRASAD	13974771A	NOW	JC-699236M	01 MAR 2013
HAVILDAR	ANANDA BIJAGARKAR	13974824N	NOW	JC-699361W	01 APR 2013
HAVILDAR	RAVINDER KUMAR	13974832M	NOW	JC-699362Y	01 APR 2013
HAVILDAR	SANJAY KUMAR	13974855N	NOW	JC-699363F	01 APR 2013
HAVILDAR	PRABHULAL GIRASIA	13974965H	NOW	JC-699364K	01 APR 2013
HAVILDAR	CHANDRA BHUSHAN YADAV	13975005W	NOW	JC-699365M	03 APR 2013\$\$
HAVILDAR	BAHADUR SINGH	13974980X	NOW	JC-699366P	01 APR 2013
HAVILDAR	RAJ MOHAN SINGH	13974992M	NOW	JC-699367X	01 APR 2013
HAVILDAR	MD ABUL KALAM AZAD	13974989M	NOW	JC-699368A	01 APR 2013
HAVILDAR	GYANENDER KUMAR SRIVASTVA	13975001A	NOW	JC-699369H	01 APR 2013
HAVILDAR	JAGDAMBA PRASAD MISHRA	13975004N	NOW	JC-699370X	01 APR 2013
HAVILDAR	NANDANIYA KESHA BHAI ARAJAN	13975042K	NOW	JC-699371A	01 APR 2013
HAVILDAR	MANGI LAL	13975063A	NOW	JC-699376Y	01 APR 2013
HAVILDAR	RAM KUMAR THAKUR	13975077A	NOW	JC-699372H	01 APR 2013
HAVILDAR	THULASEEDHARAN V	13975474Y	NOW	JC-699373L	05 APR 2013\$\$

(\$\$Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR	RAVENDRA KUMAR PATIL	13975491Y	NOW	JC-699388N	01 MAY 2013
HAVILDAR	ARBIND KUMAR GUPTA	13975486N	NOW	JC-699389W	01 MAY 2013
HAVILDAR	SATYANARAYAN SENAPATI	13975495P	NOW	JC-699390L	07 MAY 2013***
HAVILDAR	DEV CHIRAN RATHORE	13975622Y	NOW	JC-699391N	01 MAY 2013
HAVILDAR	VIRENDRA PANDEY	13975616L	NOW	JC-699392W	05 MAY 2013***
HAVILDAR	PATIL BALWANT ELLIAS BALUDAGADU	13975625M	NOW	JC-699393Y	01 MAY 2013
HAVILDAR	ROHTASH	13975730H	NOW	JC-699394F	01 MAY 2013
HAVILDAR	AMOD KUMAR JHA	13975848K	NOW	JC-699395K	01 MAY 2013
HAVILDAR	JAGADISH CHANDRA KATARE	13975906H	NOW	JC-699396M	01 MAY 2013
HAVILDAR	BABULAL	13975899X	NOW	JC-699397P	01 MAY 2013
HAVILDAR	GOHIL GAJUBHA SHIVU BHAI	13975929k	NOW	JC-699398X	01 MAY 2013
HAVILDAR	PREM Shankar TIWARI	13975902M	NOW	JC-699399A	01 MAY 2013
HAVILDAR	SELVA KUMAR J	13975986L	NOW	JC-699400K	01 MAY 2013
HAVILDAR	HARINARAIN SINGH	13975953A	NOW	JC-699401M	01 MAY 2013
HAVILDAR	BIRJANAND SINGH	13975951P	NOW	JC-699408W	01 MAY 2013

(***Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay and allowances)

HAVILDAR	SANJAY PRASAD SINGH	13976019H	NOW	JC-699409Y	03 JUN 2013###
HAVILDAR	R RAMASAMY	13976159P	NOW	JC-699410N	01 JUN 2013
HAVILDAR	SHYAM PRAKASH	13976259A	NOW	JC-699411W	01 JUN 2013
HAVILDAR	ASHA RAM MISHRA	13976257P	NOW	JC-699412Y	01 JUN 2013
HAVILDAR	VIJAY BAHADUR TIWARI	13976261X	NOW	JC-699413F	01 JUN 2013
HAVILDAR	OM PRAKASH	13976266W	NOW	JC-699414K	01 JUN 2013

HAVILDAR	TREPAN SINGH	13976272K	NOW	JC-699415M	01 JUN 2013
HAVILDAR	IQBALDIN	13976290M	NOW	JC-699486N	01 JUN 2013
HAVILDAR	SURESH NS	13976308X	NOW	JC-699487W	01 JUN 2013
(###Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)					
HAVILDAR	SATHYAN PUTHIYANDI	13976305K	NOW	JC-699488Y	01 JUL 2013
HAVILDAR	ASHA RAM	13976316W	NOW	JC-699489F	01 JUL 2013
HAVILDAR	AJAY KUMAR JHA	13976385M	NOW	JC-699490W	01 JUL 2013
HAVILDAR	JAI PRAKASH	13976394N	NOW	JC-699491Y	05 JUL 2013\$\$\$
HAVILDAR	GITARAM RATHOR	13976367K	NOW	JC-699492F	01 JUL 2013
(\$\$\$Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances)					
HAVILDAR	KAILASH PRASAD	13976412L	NOW	JC-699543K	01 AUG 2013
HAVILDAR	PRASAD BABU OK	13976491L	NOW	JC-699544M	01 AUG 2013
HAVILDAR	VV SUDHAKARAN	13976490H	NOW	JC-699545P	01 AUG 2013
HAVILDAR	INDRAJIT DAS	13976654N	NOW	JC-699546X	01 AUG 2013
HAVILDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	13976922M	NOW	JC-699547A	01 AUG 2013
HAVILDAR	AZAD SAH	13976925A	NOW	JC-699548H	01 AUG 2013
HAVILDAR	DAYA RAM	13976953M	NOW	JC-699549L	01 AUG 2013
HAVILDAR	OM PRAKASH PANDEY	13976956A	NOW	JC-699550A	01 AUG 2013
HAVILDAR	S SHUNMUGA DOSS	13977001Y	NOW	JC-699551H	01 AUG 2013
HAVILDAR	DAMOR RAJ KUMAR KADVAJI	13977010A	NOW	JC-699552L	01 AUG 2013

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (N ASST)

HAVILDAR	JOGINDER SINGH	13974217P	NOW	JC-698803X	01 NOV 2012 *
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SATYAVEER SINGH	13972027K	NOW	JC-699080A	12 DEC 2012 **
HAVILDAR	MANOHAR SINGH RATHORE	13974278M	NOW	JC699081H	12 DEC 2012 **
(** Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Nov 2012 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	VIJAYSHANKAR SINGH YADAV	13975122F	NOW	JC-698964A	01 DEC 2012
HAVILDAR	DURGULE ARUN KRISHNA	13975191X	NOW	JC-698969Y	06 JUL 2013 ***
HAVILDAR	ASHOK KUMAR SINGH	13975277W	NOW	JC-699079L	07 DEC 2012 ***
(***) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	S UMASANKAR	13975394F	NOW	JC-699162N	04 JAN 2013 #
HAVILDAR	RAJ KISHORE YADAV	13975404A	NOW	JC-699224X	02 FEB 2013 #
HAVILDAR	KESHKAR HARILAL SHARDA PRASAD	13975422H	NOW	JC-699168K	01 JAN 2013
HAVILDAR	JAI SINGH	13975462K	NOW	JC-699242A	28 JAN 2013 #
HAVILDAR	KAMAL SINGH	13975461F	NOW	JC-699163L	01 JAN 2013
HAVILDAR	SURENDRA NATH GIRI	13975445K	NOW	JC-699164N	01 JAN 2013
HAVILDAR	RAJENDER PAL	13975447P	NOW	JC-699272X	21 JAN 2013 #

HAVILDAR	SANTOSH KUMAR SINGH	13975456W	NOW	JC-699165W	01 JAN 2013
(# Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	YOGESH CHANDRA MISHRA	13975454L	NOW	JC-699249K	21 JAN 2013 ##
HAVILDAR	PAWAN KUMAR	13975540W	NOW	JC-699250Y	19 JAN 2013 ##
HAVILDAR	LAKKU BALAIAH	13975545P	NOW	JC-699251F	29 JAN 2013 ##
HAVILDAR	JAI BHAGWAN	13975596H	NOW	JC-699252K	01 FEB 2013 ##
HAVILDAR	MADAN LAL SAH GANGOLA	13975676A	NOW	JC-699253M	08 FEB 2013 ##
HAVILDAR	THANA RAM GODARA	13975638L	NOW	JC-699254P	21 JAN 2013 ##
HAVILDAR	OM PRAKASH SINGH	13975722K	NOW	JC-699255X	22 JAN 2013 ##
HAVILDAR	ARVIND KUMAR PANWAR	13975724P	NOW	JC-699256A	18 JAN 2013 ##
HAVILDAR	DEEPAK SHARMA	13975736K	NOW	JC-699257H	19 JAN 2013 ##
(## Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 Jan 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	R VIJI	13975544M	NOW	JC-699377F	23 MAR 2013 ###
(### Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 14 Jan 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	RAM MURTI MISHRA	13975779Y	NOW	JC-699258L	01 FEB 2013
HAVILDAR	NOUBAT SINGH	13975808H	NOW	JC-699259N	01 FEB 2013
HAVILDAR	PREM CHAND	13975882K	NOW	JC-699260H	01 FEB 2013
HAVILDAR	PRAKASH CHANDRA	13975134W	NOW	JC-699261L	01 FEB 2013
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SUNIL KUMAR THAPA	13975452A	NOW	JC-699262N	01 MAR 2013
HAVILDAR	THOMAS JOSEPH (MADUVILE KUTTU)	13975508F	NOW	JC-699263W	01 MAR 2013
HAVILDAR	MANVIR PRASAD TIWARI	13976042W	NOW	JC-699264Y	01 MAR 2013
HAVILDAR	JADHAV GOVIND KISHAN RAO	13976089F	NOW	JC-699265F	01 MAR 2013
HAVILDAR	GIRWAR SINGH GADAWAL	13976138Y	NOW	JC-699266K	01 MAR 2013
HAVILDAR	JAWARI LAL	13976129X	NOW	JC-699267M	01 MAR 2013
HAVILDAR	PRABHU DAYAL KASANA	13976132X	NOW	JC-699268P	01 MAR 2013
HAVILDAR	SUNIL KUMAR	13976115X	NOW	JC-699269X	06 MAR 2013 \$
(\$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	A SUNDARRAJAN	13976180X	NOW	JC-699270M	15 MAR 2013 \$
HAVILDAR	RAJESH KUMAR	13976197L	NOW	JC-699271P	01 MAR 2013
HAVILDAR	PITAMBARA TRIPATHY	13976235W	NOW	JC-699318P	01 MAR 2013
(\$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	DURGA RAM	13974889F	NOW	JC-699421A	01 APR 2013 \$\$
(\$\$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 Mar 2013 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SAJEEV S	13976212P	NOW	JC-699319X	01 APR 2013
HAVILDAR	SURENDRA KUAR	13976299F	NOW	JC-699320M	01 APR 2013

HAVILDAR	RAVINDRA KUMAR	13976302W	NOW	JC-699321P	25 JUL 2013 \$\$\$
HAVILDAR	JAGVIR SINGH	13976321F	NOW	JC-699322X	01 APR 2013
HAVILDAR	KRISHAN KUMAR	13976325X	NOW	JC-699422H	01 APR 2013
HAVILDAR	ABHE SINGH	13976317Y	NOW	JC-699423L	01 APR 2013
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13976324P	NOW	JC-699424N	01 APR 2013

(\$\$\$ Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allces)

HAVILDAR	OM PRAKASH MISHRA	13975450P	NOW	JC-699425W	02 MAY 2013 &
HAVILDAR	RAJ KUMAR	13976365Y	NOW	JC-699426Y	01 MAY 2013
HAVILDAR	SUBHASH DHANGAR	13976343A	NOW	JC-699427F	01 MAY 2013
HAVILDAR	SAJJAN KUMAR	13976342X	NOW	JC-699428K	01 MAY 2013
HAVILDAR	LAWAND DADASAHEB BAPURAO	13976437X	NOW	JC-699429M	01 MAY 2013

HAVILDAR	BHAIYA LAL SINGH	13976457L	NOW	JC-699430F	03 MAY 2013 &
----------	------------------	-----------	-----	------------	---------------

(& Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay and allces)

HAVILDAR	T SANKARA NARAYANAN	13976443L	NOW	JC-699481P	01 JUN 2013
----------	------------------------	-----------	-----	------------	-------------

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allces)

HAVILDAR	BIRENDER SINGH YADAV	13976444N	NOW	JC-699482X	01 JUL 2013
----------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allces)

HAVILDAR	DHANANJAY PRATAP	13976501K	NOW	JC-699594X	02 SEP 2013 &&
HAVILDAR	LAKHVINDER SINGH	13976486A	NOW	JC-699595A	01 SEP 2013
HAVILDAR	KULDEEP SINGH	13976553A	NOW	JC-699596H	01 SEP 2013
HAVILDAR	VED PARKASH	13976516M	NOW	JC-699597L	03 SEP 2013 &&

(&& Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allces)

Sd/- ILLEGIBLE
Under Secretary

(ARMY BRANCH)

No. 220, dated 12 th September 2014—The President is pleased to release the undermentioned Officer from Army Service w.e.f. the date shown against his name under AI 15/79.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

RELEASE

S No	Pers No	Rank & Name	Date of Release
(a)	DS-12194A	Maj Gaurav Arora	22-03-13 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in